

# माइक्रो और लघु उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड

अगस्त 2012

भारतीय बैंकिंग संहिता और  
मानक बोर्ड

[www.bcsbi.org.in](http://www.bcsbi.org.in)

यह एक कोड है, जो बैंक के माइक्रो और लघु उद्यमी ग्राहकों को उनके दैनिक कारोबार एवं वित्तीय कठिनाइयों के समय सहज, शीघ्र और पारदर्शी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की बैंक की सकारात्मक प्रतिबद्धता को दर्शाता है । यह कोड माइक्रो और लघु उद्यमियों का न केवल अधिकार पत्र है बल्कि उनके बैंक की तुलना में उनके दायित्वों को भी समाहित करता है ।

## विषय-वस्तु सारणी

1. **परिचय**
  - 1.1 कोड के उद्देश्य
  - 1.2 कोड की प्रयोज्यता
2. **प्रमुख प्रतिबद्धताएं**
  - 2.1 आपके प्रति हमारी प्रमुख प्रतिबद्धताएं
3. **सूचना**
  - 3.1 सामान्य
  - 3.2 ब्याज दरें
  - 3.3 दर सूची
  - 3.4 शर्तें
4. **प्राइवैसी एवं गोपनीयता**
  - 4.1 ऋण सूचना कंपनियां
5. **उधार**
  - 5.1 आवेदन
  - 5.2 ऋण आकलन
  - 5.3 स्वीकृति/अस्वीकृति
  - 5.4 केंद्रीय रजिस्ट्री
  - 5.5 वितरण पश्चात्
  - 5.6 गैर निधि आधारित सुविधाएं
  - 5.7 बीमा
  - 5.8 वित्तीय कठिनाइयां
  - 5.9 बीमार माइक्रो और लघु उद्यमों की देखरेख और ऋण पुनर्संरचना
6. **बकाया राशि की वसूली तथा प्रतिभूति पुनःअधिग्रहण नीति**
  - 6.1 बकाया राशि की वसूली
  - 6.2 बकाया राशि की वसूली तथा प्रतिभूति पुनःअधिग्रहण नीति
7. **जमाखाते**
  - 7.1 खाता खोलना और जमा खातों का परिचालन
  - 7.2 आपके खाते को बदलना
  - 7.3 जब आप जमा खाता खोलते हैं
  - 7.4 न्यूनतम शेष राशि
  - 7.5 प्रभार
  - 7.6 मीयादी जमाराशियां
  - 7.7 विवरण
  - 7.8 निष्क्रिय खाते
  - 7.9 आपका खाता बंद करना
  - 7.10 समाशोधन चक्र/वसूली सेवाएं

- 7.11 नकदी लेनदेन
  - 7.12 प्रत्यक्ष नामे और स्थायी अनुदेश
  - 7.13 भुगतान रोकने संबंधी सुविधा
  - 7.14 आपके द्वारा जारी पिक/नामे अनुदेश
  - 7.15 शाखा बंद करना/शिफ्ट करना
  - 7.16 दिवंगत खाता धारकों के संबंध में दावों का निपटान
  - 8. **आपके खाते को सुरक्षित रखना**
    - 8.1 सुरक्षित और भरोसेमंद बैंकिंग एवं भुगतान प्रणालियां
    - 8.2 हमें अद्यतन जानकारी प्रदान करना
    - 8.3 अपने खाते की जांच करना
    - 8.4 ध्यान रखना
    - 8.5 इंटरनेट बैंकिंग
    - 8.6 भुगतान रद्द करना
    - 8.7 हानियों का उत्तरदायित्व
  - 9. **सेवाएं**
    - 9.1 विदेशी मुद्रा सेवाएं
    - 9.2 भारत के भीतर धन-प्रेषण
  - 10. **शिकायतें, परिवाद तथा और फीडबैक**
    - 10.1 आंतरिक प्रक्रियाएं
    - 10.2 बैंकिंग लोकपाल योजना
  - 11. **विज्ञापन, विपणन और बिक्री**
  - 12. **निगरानी**
  - 13. **मदद प्राप्त करना**
  - 14. **कोड की समीक्षा**
- अनुबंध - शब्दावली**

# परिचय

यह एक कोड है, [1] माइक्रो तथा लघु और मध्यम उद्यम विकास (एसएसएमडी) अधिनियम, 2006 में यथा पारिभाषित **माइक्रो और लघु उद्यमों** (एमएसइ) के साथ व्यवहार करते समय बैंकों के लिए बैंकिंग प्रथाओं के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। यह आपको सुरक्षा प्रदान करता है और यह बताता है कि आपके दैनंदिन परिचालनों तथा वित्तीय कठिनाइयों के लिए बैंक आपके साथ कैसे व्यवहार करेंगे।

यह कोड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विनियामक अथवा पर्यवेक्षी अनुदेशों को बदलता अथवा अधिक्रमित नहीं करता है और हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/निदेशों का पालन करेंगे। इस कोड के ये प्रावधान उन मानकों से उच्चतर मानक निर्धारित कर सकते हैं जो विनियामक अथवा पर्यवेक्षी अनुदेशों में उल्लिखित हैं और ऐसे उच्चतर मानक जारी रहेंगे क्योंकि यह कोड आपके प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुसार सहमत सर्वोत्तम व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करता है।

कोड में 'आप' का अर्थ है - ग्राहक और 'हम' का अर्थ है - जिस बैंक के साथ ग्राहक व्यवहार करता है।

## 1.1 कोड के उद्देश्य

कोड

के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

- क) सक्षम बैंकिंग **सेवाओं** के लिए आसान पहुँच उपलब्ध कर माइक्रो और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर सकारात्मक बल देना।
- ख) आपके साथ व्यवहार करते समय न्यूनतम मानक निर्धारित करके अच्छे तथा निष्पक्ष बैंकिंग व्यवहारों का संवर्धन।
- ग) पारदर्शिता बढ़ाना ताकि आप यह बेहतर ढंग से समझ सकें कि सेवाओं के संबंध में आप सामान्यतया क्या आशा कर सकते हैं।
- घ) प्रभावी संवाद के माध्यम से आपके कारोबार के प्रति हमारी समझ को बेहतर बनाना।
- ङ) बेहतर परिचालनात्मक मानक प्राप्त करने के लिए, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, बाजार शक्तियों को प्रोत्साहित करना।
- च) आपके तथा हमारे बीच अच्छे तथा सौहार्द्रपूर्ण संबंध बढ़ाना तथा आपकी बैंकिंग आवश्यकताओं के प्रति समय पर और तीव्र कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- छ) बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बढ़ाना।

कोड के मानक भाग 2 में दी गयी प्रमुख प्रतिबद्धताओं में शामिल हैं।

## 1.2 कोड की प्रयोज्यता

[1] सा कि माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में पारिभाषित है, वस्तुओं के विनिर्माण अथवा उत्पादन अथवा प्रसंस्करण अथवा संरक्षण में लगे माइक्रो लघु और मध्यम

उद्यम तथा सेवाएँ उपलब्ध करानेवाले अथवा सेवाएँ प्रदान करनेवाले उद्यम माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम में शामिल हैं।

□ब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, यह कोड नीचे सूचीबद्ध सभी उत्पादों तथा सेवाओं पर, चाहे वे शाखाओं या सहायक संस्थाओं द्वारा, काउंटर पर, फोन पर, डाक द्वारा, इंटरएक्टिव इलेक्ट्रॉनिक उपायों द्वारा, इंटरनेट पर या अन्य किसी विधि से दी गयी है, लागू होगा। तथापि, यहां दिये गये सभी उत्पाद हमारे द्वारा दिए जा सकते हैं अथवा नहीं दिए जा सकते हैं।

क. **□लू खाता**, मीयादी जमाराशियां, आवर्ती खाता, तथा अन्य सभी **□मा खाते**।

ख. भुगतान सेवाएं जैसे कि भुगतान आदेश, मांग ड्राफ्ट तथा वायर ट्रांसफर द्वारा विप्रेषण, सभी इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन जैसे तुरंत सकल भुगतान (**आरटीजीएस**), इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (**ईएफटी**), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (**एनएफटी**) अथवा अन्य स्वरूप के माध्यम से विप्रेषण।

ग. सरकारी लेन-देन से संबंधित बैंकिंग सेवाएं।

घ. **डीमेट खाते, ईक्विटी, सरकारी बांड**।

ङ. भारतीय करेंसी नोट विनिमय सुविधा।

□ चेकों/लिखतोंकी वसूली, सुरक्षित अभिरक्षा सेवाएं।

छ. ऋण तथा अन्य **ऋण सुविधाएँ** जिसमें निधि आधारित सुविधाएँ □से नकद ऋण, **ओवरड्राफ्ट**, □क तथा बिल खरीद/भुनाई (देशी तथा विदेशी दोनों), **साख-पत्र** के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों के रिजर्व के अंतर्गत बेचान (देशी तथा विदेशी दोनों) तथा गैर-निधि आधारित सुविधाएँ □से देशी तथा/अथवा विदेशी साख-पत्र (डी/पी या डी/ए) की स्थापना, **गारंटी** □री करना (देशी तथा विदेशी दोनों), वसूली के लिए देशी या विदेशी **बिल** या चेक, बिलों की सह-स्वीकृति तथा गारंटी, खरीदार की साख, आदि शामिल हैं।

□. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (एफइएमए)/ भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन अनुमत्य मुद्रा परिवर्तन सहित विदेशी मुद्रा सेवाएं।

□. हमारी शाखाओं तथा/अथवा हमारे प्राधिकृत प्रतिनिधियों अथवा एजेंटों द्वारा बे□ गए अन्य पार्टी बीमा तथा निवेश उत्पाद।

ज. **एटीएम** /डेबिट /क्रेडिट कार्ड जैसे **कार्ड** उत्पाद और सेवाएँ।

ट. **फैक्टरिंग सेवाएँ**।

ठ. **व्यापारिक सेवाएँ**।

ऊपर **बोल्ड ब्लॉक** में दिये गये शब्दों के अर्थ इस पुस्तिका के अंत में शब्दावली में दिये गये हैं।

## 2. प्रमुख प्रतिबद्धताएं

### 2.1 आपके प्रति हमारी प्रमुख प्रतिबद्धताएं

#### 2.1.1 आपके साथ हमारे सभी व्यवहार में हम निष्पक्ष और न्यायसंगत बरताव करेंगे और उसके लिए हम ;

- क. बैंक के काउंटर पर नकदी/चेक की प्राप्ति और भुगतान के लिए न्यूनतम बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे ।
- ख. शीघ्र और दक्ष ऋण एवं सेवाएं उपलब्ध कराएंगे ।
- ग. हमारे द्वारा प्रस्तुत उत्पादों तथा सेवाओं के लिए तथा हमारे स्टाफ द्वारा अपनाई जा रही क्रियाविधियों और प्रथाओं में इस कोड की प्रतिबद्धताओं तथा मानकों का पालन करेंगे ।
- घ. यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे उत्पाद एवं सेवाएं संबंधित कानूनों और विनियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं ।
- ङ. यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके साथ हमारा व्यवहार ईमानदारी तथा पारदर्शिता के नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है ।
- च. सुरक्षित तथा भरोसेमंद बैंकिंग और **भुगतान एवं निपटान प्रणालियां** परिचालित करेंगे।
- छ. वित्तीय कठिनाइयों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे (नीचे दिया गया पैरा 5.8 देखें) ।

#### 2.1.2 निम्नलिखित के द्वारा आपको यह समझने में मदद करना कि हमारे उत्पाद तथा सेवाएं कैसे काम करते हैं :-

- क. उनके बारे में निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक भाषाओं में उनके बारे में आपको सूचना देना : हिंदी, अंग्रेजी या उचित स्थानीय भाषा ।
- ख. यह सुनिश्चित करना कि हमारा विज्ञापन तथा प्रचार साहित्य स्पष्ट है तथा भ्रामक नहीं है।
- ग. यह सुनिश्चित करना कि हमारे उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में, उन पर लागू नियम एवं शर्तों तथा ब्याज दरों/सेवा प्रभारों के बारे में आपको स्पष्ट तथा पूरी जानकारी दी गई है ।
- घ. यह सुनिश्चित करना कि हमारे उत्पादों की कोई गलत बिक्री न हो ।
- ङ. आपको दी जानेवाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना और आप उनका लाभ कैसे उठा सकते हैं तथा अपने प्रश्नों के बारे में आप किससे तथा कैसे संपर्क करें ।

#### 2.1.3 निम्नांकित के द्वारा आपको अपने खाते या सेवा के उपयोग में सहायता करना:

- क. आपको उपयुक्त अद्यतन जानकारी सतत प्रदान करते रहना ।
- ख. ब्याज दरों, प्रभारों अथवा नियम एवं शर्तों में होनेवाले परिवर्तनों के बारे में आपको जानकारी देते रहना ।

- ग. हमारी शाखाओं में आपकी जानकारी के लिए निम्नलिखित को प्रदर्शित करना:
- हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं।
  - लू खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि तथा उस राशि का अनुरक्षण न होने पर उसका प्रभार
  - यदि आपको कोई शिकायत है, शाखा के उस अधिकारी का नाम जिससे आप संपर्क कर सकते हैं।
  - यदि आपकी शिकायत का निवारण शाखा स्तर पर नहीं हुआ है, उस आंचलिक /क्षेत्रीय प्रबंधक का नाम तथा पता जिससे आप संपर्क कर सकते हैं।
  - उस **बैंकिंग लोकपाल** का नाम और संपर्क विवरण जिसके अधिकार क्षेत्र में शाखा है।
  - बुकलेट के रूप में पलब्ध सूचना।
- घ. हमने निम्नलिखित संबंधी अपनी नीतियों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है:
- क वसूली
  - शिकायत निवारण
  - मुआवजा
  - देय राशियों की वसूली तथा प्रतिभूति **पुनःअधिग्रहण**

#### 2.1.4 कुछ गलत हो जाने पर सहानुभूतिपूर्वक और शीघ्र कार्रवाई करना

- क. गलती को तुरंत सुधारना तथा हमारी गलती के कारण लगाये गये बैंक प्रभारों को रद्द करना।
- ख. आपकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करना।
- ग. यदि आप फिर भी संतुष्ट न हों तो अपनी शिकायत आगे किसे करें इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करना (नीचे दिया गया पैरा 10 देखें)
- घ. बैंक में प्रौद्योगिकी संबंधी असफलता के कारण होनेवाली समस्याओं को दूर करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक उपाय प्रदान करना।

#### 2.1.5 आपकी सभी वैयक्तिक एवं कारोबारी सूचनाओं को प्राइवेट तथा गोपनीय रखना।

नीचे दिये गये पैरा 4 में उल्लिखित विषयवस्तु के अधीन हम आपकी सभी वैयक्तिक एवं कारोबारी सूचनाओं को प्राइवेट तथा गोपनीय रखेंगे।

#### 2.1.6 कोड के प्रचार के लिए हम

- क. आपके अनुरोध पर काउंटर पर या इलेक्ट्रॉनिक सूचना या **डाक** द्वारा आपको (विद्यमान **ग्राहक**) कोड की प्रति मुफ्त उपलब्ध करायेंगे।
- ख. आपको (नये ग्राहक) अपना खाता खोलने पर कोड की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेंगे।



- ग. प्रत्येक शाखा में तथा हमारी वेबसाइट पर यह कोड अवलोकनार्थ उपलब्ध करायेंगे ।
- घ. यह सुनिश्चित करना कि कोड के बारे में सूचना प्रदान करने तथा कोड का उपयोग करने में हमारा स्टाफ प्रशिक्षित है ।

### 2.1.7 भेदभाव रहित नीति अपनाना तथा उसका उपयोग करना

हम उद्यम के प्रमोटर/मालिक/पार्टनर में उम्र, जाति, लिंग, वैवाहित स्थिति, धर्म या अक्षमता, यदि कोई हो, के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे ।

## 3. सूचना

आप निम्नलिखित में से किसी के भी द्वारा ब्याज दरों, एकसमान शुल्क तथा प्रभारों के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं:

- क. हमारी शाखाओं या हेल्पलाइनों को फोन करके;
- ख. हमारी वेबसाइट देखकर;
- ग. हमारे विनिर्दिष्ट स्टाफ/सहायता डेस्क से पूछकर; या
- घ. **टैरिफ सूची** का संदर्भ देना (कृपया नीचे पैराग्राफ 3.3 देखें) जो शाखा अथवा हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

### 3.1 सामान्य

- क. हम अपने द्वारा प्रदान की गई सभी योजनाओं विशेषतः माइक्रो और लघु उद्यमों पर आपको सूचना देंगे।
- ख. हम अपने ऋण उत्पादों की प्रमुख विशेषताओं अर्थात् **नकद ऋण**, मीयादी ऋण, **गारंटियों**, **बिल भुनाई/खरीद** सेवाएं, लागू ब्याज दर सहित तुलनपत्रेतर मर्दों, ब्याज दरों और शुल्क तथा प्रभारों की गणना की पद्धति को स्पष्ट करने के लिए आपको सूचित करेंगे।
- ग. आपकी पसंद के उत्पाद और सेवा को आपकी आवश्यकता के अनुरूप बनाएंगे।
- घ. यदि एक से अधिक ढंग से हम कोई उत्पाद तथा सेवाएं देते हैं (उदाहरण के लिए - एटीएम से, इंटरनेट पर, फोन पर, शाखाओं में, आदि) तो इसकी जानकारी देंगे तथा आपको यह बताएंगे कि आप उनके बारे में और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
- ड. कानूनी, विनियामक तथा आंतरिक नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी पहचान तथा पते के बारे में आपको यह बताएंगे कि हमें आपसे किस सूचना की आवश्यकता होगी।

### 3.2 ब्याज दरें

#### ब्याज दरों में परिवर्तन

हम आपको सात दिन के भीतर निम्न प्रकार से अपने उत्पादों पर ब्याज दरों में परिवर्तन की सूचना देंगे -

- क. पत्र द्वारा;
- ख. एसएमएस द्वारा; या
- ग. ई-मेल द्वारा

आपकी उपयुक्तता के अनुसार

यह सूचना हम अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करेंगे तथा अवलोकन के लिए इसे हमारी शाखाओं पर उपलब्ध कराया जाएगा।

### 3.3 टैरिफ सूची

#### 3.3.1 शुल्क और प्रभार

- क. बचत बैंक खाते में न्यूनतम जमाराशि न रखने पर, बाहरी चेक की वसूली, मांग ड्राफ्ट तथा चेक बुक जारी करने, खाता विवरण, खाता बंद करने तथा एटीएम स्थलों पर राशि जमा करने/निकालने पर लगाए गए प्रभारों जैसे आपकी पसंद के उत्पाद और सेवाओं पर लागू सभी प्रभारों की जानकारी आपको देंगे।
- ख. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क और सेवा प्रभार बैंक के बोर्ड या किसी ऐसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, जिसके पास सभी शाखाओं का अधिकार क्षेत्र है तथा इस संबंध में निर्णय लेने के लिए बोर्ड द्वारा उसे विधिवत प्राधिकृत किया गया है तथा वे शुल्क और सेवा प्रभार समान श्रेणी के ग्राहकों के लिए उचित तथा गैर-भेदभाव वाले हैं।
- ग. हम अपनी वेबसाइट पर हमारी टैरिफ सूची जारी करेंगे तथा आपके आवलोकन के लिए इसकी एक प्रति प्रत्येक शाखा पर निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।
- घ. हम अपनी वेबसाइट और सभी शाखाओं पर बिना प्रभार के प्रदान की जानेवाली सेवाओं की एक सूची प्रदर्शित करेंगे।
- ङ. आपके द्वारा चुने गये किसी भी उत्पाद/सेवा को नियंत्रित करनेवाली किसी शर्त के पालन नहीं किए जाने/उल्लंघन किए जाने की स्थिति में लगाए गए दण्ड के बारे में भी आपको सूचित करेंगे।
- च. मुख्य बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में शाखा का उन्नयन किए जाने पर हम अपने प्रभारों में वृद्धि नहीं करेंगे।

#### 3.3.2 शुल्क अथवा प्रभार में परिवर्तन

यदि हम किसी शुल्क अथवा प्रभार में परिवर्तन/संशोधन करते हैं अथवा कोई नया शुल्क या प्रभार लगाते हैं तो संशोधित प्रभार के प्रभावी होने के एक महीने पूर्व इसे लेखा विवरण/ई-मेल/एसएमएस चेतावनी/शाखाओं में सूचना पट्ट पर लगाए जाने के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा। यह सूचना हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायी जाएगी।

### 3.4 शर्तें

- क. आपने हमसे जो सेवा मांगी है, हम आपको उससे संबंधित शर्तों की सूचना देंगे।

ख. सभी शर्तें निष्पक्ष होंगी तथा विशेष रूप से **नामांकन सुविधा** के बारे में अधिकारों का तथा देयताओं और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट उल्लेख करेंगी और जहां तक संभव हो, और स्पष्ट तथा सहज भाषा में होंगी।

### 3.4.1 शर्तों में परिवर्तन

क. हम आपको निम्न प्रकार से शर्तों में परिवर्तन की सूचना देंगे -

- i. पत्र द्वारा;
- ii. एसएमएस द्वारा; या
- iii. ई-मेल द्वारा

आपकी उपयुक्तता के अनुसार

यह सूचना हम अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करेंगे तथा अवलोकन के लिए इसे हमारी शाखाओं पर उपलब्ध कराया जाएगा।

ख. सामान्यतः, शर्तों में परिवर्तन एक माह का नोटिस देते हुए भावी प्रभाव से लागू होंगे।

ग. यदि हम नोटिस के बिना कोई परिवर्तन करेंगे तो 30 दिन के भीतर उस परिवर्तन की सूचना देंगे। यदि इस प्रकार का परिवर्तन आपके हित में न हो तो आप 60 दिन के भीतर और नोटिस के बिना अपना खाता बंद कर सकते हैं या कोई अतिरिक्त प्रभार या ब्याज अदा किये बिना उसे अन्यत्र ले जा सकते हैं।

घ. यदि हम किसी एक साल में कोई बड़ा परिवर्तन करते हैं या बहुत सारे छोटे परिवर्तन करते हैं तो हम आपके अनुरोध पर आपको नयी शर्तों या परिवर्तनों के सारांश की प्रति देंगे।

## 4. प्राइवैसी तथा गोपनीयता

क. हम आपकी सारी वैयक्तिक तथा कारोबारी सूचना को प्राइवेट और गोपनीय रखेंगे (आप हमारे ग्राहक न रहें तब भी) और निम्नलिखित सिद्धांतों तथा नियमों का अनुसरण करेंगे। हम निम्नलिखित अपवादात्मक मामलों को छोड़कर, आपके खातों के संबंध में कोई सूचना या डाटा, चाहे वह आपके द्वारा दी गयी हो या अन्यथा, हमारे समूह की अन्य कंपनियों/इकाइयों सहित, किसी को भी प्रदान नहीं करेंगे :

- i. यदि हमें सूचना कानूनी तौर पर देनी पड़ती है।
- ii. यदि सूचना प्रकट करने के लिए जनता के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी हो।
- iii. यदि हमारे अपने हित में तथा/या किसी विवेक पूर्ण जोखिम कम करने की रणनीति के कारण हमें सूचना देनी पड़े (उदाहरणार्थ धोखाधड़ी रोकने के लिए)। तथापि, हम इस कारण का उपयोग आपके बारे में या आपके खातों के बारे में (आपके नाम तथा पते सहित) हमारे अपने समूह की अन्य कंपनियों सहित विपणन के प्रयोजन के लिए किसी को भी देने के लिए नहीं करेंगे।

- iv. यदि सूचना प्रकट करने के लिए आप हमें कहें, या हमें आपकी अनुमति प्राप्त हो ।
- ख. यदि हमें आपके बारे में बैंकर का संदर्भ (रेफरन्स) देने के लिए कहा जाता है, तो उसे देने से पहले हमें आपकी लिखित अनुमति आवश्यक होगी ।
- ग. आपके बारे में जो व्यक्तिगत रिकार्ड हमारे पास हैं, उन तक पहुंच के लिए मौजूदा विधिक ढांचे के अंतर्गत आपको उपलब्ध अधिकारों के बारे में हम आपको बताएंगे ।
- घ.  तब तक कि आप हमें विशेष रूप से प्राधिकृत नहीं करते, हम अपने सहित किसी को भी आपकी व्यक्तिगत सूचना का उपयोग विपणन के प्रयोजन के लिए नहीं करने देंगे ।

#### 4.1 ऋण सूचना कंपनियों

- क. हम आपको ऋण सूचना कंपनियों (**सीआईसी**) की भूमिका तथा उनके द्वारा उनके सदस्यों दी जाने वाली जानकारी से ऋण ले सकने की आपकी क्षमता पर पड़नेवाले प्रभाव बारे में बताएंगे।
- ख.  आप अपना खाता खोलते हैं, तब हम आपके खाते का विवरण ऋण सूचना कंपनियों को देंगे जिसमें आप पर हमारी कितनी कारोबारी/निजी उधारी है और आपके खाते का संचलन कैसा रहा है, इसके बारे में जानकारी का समावेश होगा और समय-समय पर हम उनसे छानबीन कर सकते हैं
- ग. हमसे लिए गए ऋण की अद्यतन जानकारी ऋण सूचना कंपनियों को मासिक आधार पर हमारे द्वारा सूचित की जाएगी।
- घ. ऋण सूचना कंपनियों को दी जाने वाली जानकारी में आपके द्वारा हमसे लिए गए व्यक्तिगत ऋणों की जानकारी भी शामिल होगी, जब भी
  - i. आप अपनी अदायगी में पीछे रह जाएंगे
  - ii. उधार ली गई राशि विवाद ग्रस्त हो जाए
  - iii. ऋण की राशि को चुकाने के लिए आपके द्वारा दिए गए किसी प्रस्ताव, जिससे हम संतुष्ट न हों।
- ङ. यदि आपका ऋण खाता चूक कर्ता की श्रेणी में पहुंच जाता है और बाद में उसे नियमित किया जाता है, हम ऋण सूचना कंपनियों के पास इस जानकारी को अद्यतन करने के लिए अगली मासिक रिपोर्ट में कार्रवाई करेंगे ।
- च. हम ऋण सूचना कंपनियों को हमारी संतुष्टि के लिए आपके खाते के विवरणों की अद्यतन सूचना, विशेष रूप से जब आपका खाता कुछ समय " सब-स्टैंडर्ड " रहने के बाद " स्टैंडर्ड " हो जाता है तथा/या खाते के नियमित/बंद होने के तुरंत बाद, मासिक आधार पर देते रहेंगे।
- छ. जब आप हमसे ऋण सुविधा लेने के लिए आवेदन करेंगे, हम आपके अनुरोध पर, तथा निर्धारित शुल्क की अदायगी पर, हमारे द्वारा ऋण सूचना कंपनी से प्राप्त की गई सूचना की प्रति आपको देंगे।

## 5. उधार

- क. हमारी ऋण नीति राष्ट्रीय नीति और विनियामक निर्धारण के उद्देश्य और मूल भावना को प्रतिबिंबित करेगी। हम एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे।
- ख. हम माइक्रो और लघु उद्यम से संबंधित नीति को अपनी वेबसाइट पर जारी करेंगे तथा इसे आपके अवलोकन के लिए शाखा में भी उपलब्ध कराएंगे। आपके अनुरोध पर हम नाम मात्र के प्रभार पर उसकी एक प्रति आपको उपलब्ध कराएंगे।
- ग. हम निम्नलिखित से संबंधित नीति की प्रति अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे तथा इसे हमारी शाखाओं में भी उपलब्ध कराएंगे।
- माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए ऋण देना
  - माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए पुनर्वास
- घ. हम आपको माइक्रो और लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की ऋण गारंटी योजना की मुख्य- मुख्य बातों, जिसमें इसकी शर्तों तथा उपलब्ध लाभ एवं देय प्रभार शामिल हैं, की सूचना देंगे। इस योजना को पात्र बैंकों द्वारा विस्तारित किया गया है तथा इसे माइक्रो और लघु उद्यमियों के लिए सीएलटीएमएसई गारंटी योजना के नाम से लोकप्रिय रूप से जाना जाता है तथा यह योजना नए तथा मौजूदा माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए उपलब्ध है, जिसमें प्रति उधारकर्ता रु 100 लाख (एक सौ लाख रुपए) की अधिकतम सीमा वाले सेवा उद्यम शामिल हैं। उक्त योजना के अनुसार इसमें खुदरा व्यापार, शैक्षिक संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थान तथा स्वयं सहायता समूह (एसजीएच) शामिल नहीं हैं।
- ङ. [ ]हां पर ऋण की पात्रता लागू किसी आर्थिक सहायता के अंतर्गत बनती है, हम आपको इस प्रकार की योजना की मुख्य-मुख्य बातों तथा आपके द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षा के बारे में बताएंगे
- [ ] हमारा यह प्रयास होगा कि संभाव्य उधारकर्ताओं के वित्तीय प्रबंधन संबंधी ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
- छ. हमारा यह प्रयास होगा कि सुझावों और विचारों के आदान-प्रदान के लिए नियमित [ ]मिल के रूप में माइक्रो और लघु उद्यमों के उधारकर्ताओं की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाएं।

### 5.1 आवेदन

हम आपको

- क. ऋण के लिए निःशुल्क, सरल मानकीकृत, समझने में आसान आवेदन फार्म उपलब्ध कराएंगे।
- ख. ऋण आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों एक जांच सूची (विधिक और विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन योग्य) आपको उपलब्ध कराएंगे ताकि आप

- सभी तरह से पूर्ण आवेदनपत्र प्रस्तुत कर सकें। यदि अपेक्षित होगा तो हम आपके ऋण आवेदन फार्म को भरने में सहायता करेंगे।
- ग. आपको आवेदन फार्म उपलब्ध कराते समय लागू ब्याज दरों, वार्षिक ब्याज दरों सहित तथा शुल्क और प्रभारों, यदि कोई हों, के लिए देय, प्रसंस्करण, पूर्व भुगतान विकल्प/प्रभार, और ऐसा कोई अन्य मामला जो आपके हित को प्रभावित कर सकता है के बारे में सूचना भी उपलब्ध कराएंगे ताकि उन अन्य बैंकों के साथ एक सार्थक तुलना की जा सके और आपके द्वारा एक सूचित निर्णय लिया जा सके।
- घ. आपका ऋण आवेदनपत्र, चाहे वह ऑन-लाइन प्रस्तुत की गया हो या प्रत्यक्ष रूप से, उसकी प्राप्ति की लिखित सूचना, आवेदन के निपटान की समय सीमा का उल्लेख करते हुए, दी जाएगी।
- ङ. आवेदन करते समय सामान्यतः ऋण सुविधा के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित सभी विवरण संकलित करेंगे। यदि किसी अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता हुई तो हम आवेदनपत्र की प्राप्ति के सात कार्य-दिवसों के भीतर आपसे संपर्क करेंगे।
- च. ऋण सुविधा के लिए आवेदनपत्र के प्रसंस्करण हेतु अपेक्षित विवरण सामान्यतः आवेदन के समय ही ले लिए जाते हैं। यदि हमें किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, हम आवेदन की प्राप्ति से सात कार्य दिवस के अंदर आपसे संपर्क करेंगे।
- छ. हमारे द्वारा अनुमोदित ऋण/ऋण सुविधा को नियंत्रित करने वाली अति महत्व पूर्ण शर्तें(एमआइटीसी) आपको दी जाएंगी तथा उन्हें आपके द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है।
- ज. आपके आवेदन की स्थिति की ऑन-लाइन जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे।
- झ. ऋण की संस्वीकृति मिले हो या न हो, 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क हेतु कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।
- ञ. ऋण सीमा अथवा 5 लाख रुपए तक की वर्तमान ऋण सीमा में बढ़ोत्तरी के लिए आपके आवेदनपत्र का दो सप्ताह के भीतर निपटान करेंगे और 5 लाख रुपए से अधिक तथा 25 लाख रुपए तक की ऋण सीमा के लिए आवेदनपत्र की प्राप्ति की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर निपटान करेंगे तथा 25 लाख रुपए से अधिक की राशि के लिए ऋण आवेदन का निपटान प्राप्ति की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर निपटान करेंगे, बशर्ते आपका आवेदन सब प्रकार से पूर्ण हो तथा उपलब्ध 'जाँच सूची' के अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न किए गए हों।

## 5.2 ऋण आकलन

- क. हम
- आपके आवेदनपत्र में उल्लिखित ब्यौरे का आपके कारोबारी पते/आवास पर हमारे द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए स्टाफ/एजेंसियों के माध्यम से संपर्क करते हुए सत्यापन करेंगे।
  - आपको किसी प्रकार की राशि उधार देने अथवा आपके ओवर-ड्राफ्ट अथवा उधार सीमा/सीमाओं को बढ़ाने के पहले हम यह आकलन करेंगे। हम आपके

आवेदनपत्र का समुचित आकलन विस्तृत समुचित सावधानी और मूल्यांकन जारी रखते हुए करेंगे।

- iii) आपके द्वारा किए गए अनुमानों के औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेंगे।
- iv) आपकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करते समय आपके कारोबार की सामयिकता या चक्रियता को ध्यान में रखा जाएगा तथा आवश्यक हुआ तो व्यस्ततम और गैर-व्यस्ततम ऋण सीमाएं अलग-अलग निर्धारित की जाएंगी।

ख. उचित आकलन के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी:

- i) उधार का प्रयोजन
- ii) आपकी कारोबारी योजना।
- iii) आपका कारोबारी नकदी प्रवाह, लाभप्रदता और यदि आवश्यक हो तो लेखा विवरणों द्वारा पूरी की गई वर्तमान वित्तीय प्रतिबद्धता।
- iv) आपकी व्यक्तिगत वित्तीय प्रतिबद्धता,
- v) पूर्व में आपने अपने वित्त को किस प्रकार व्यवस्थित किया है।
- vi) ऋण सूचना कंपनियों से सूचना जो हम प्राप्त करते हैं।
- vii) ऋण दर निर्धारण एजेंसियाँ यदि कोई हों, के द्वारा समनुदेशित क्रम निर्धारण।
- viii) अन्य उधारदाताओं/ऋणदाताओं जैसे अन्यो से सूचना।
- ix) बाजार रिपोर्टें।
- x) उपलब्ध कराई गई कोई **सिक्युरिटी** या यदि ऋण की आवश्यकता एक सौ लाख रुपए के अंदर है तो क्या सीजीटीएमएसई गारंटी कवर उपलब्ध है।
- xi) अन्य कोई संबंधित सूचना।

ग. हम

- i) 10 लाख रुपए तक की ऋण सीमा के लिए या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमाओं तक के ऋण के लिए किसी संपार्श्विकता का आग्रह नहीं करेंगे।
- ii) 25 लाख रुपए तक की संपार्श्विकता मुक्त ऋण सीमा उपलब्ध कराने पर विचार करेंगे यदि हम आपके पिछले कार्यानिष्पादन से संतुष्ट हैं तथा आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी और मजबूत रही है।
- iii) आपको मंजूर की गई ऋण सुविधाओं को माइक्रो और लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत रु100 लाख (एक सौ लाख रुपए) की अधिकतम सीमा तक के कवर के लिए आपकी सहमति लेंगे तथा तदनुसार 100 लाख रुपए (एक सौ लाख रुपए) तक की सुविधाओं के लिए संपार्श्विकता तथा/या अन्य पार्टी गारंटी का आग्रह नहीं करेंगे, यदि हमारे द्वारा

अनुमोदित सुविधा एक पात्र सुविधा है तथा वह सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत आती है एवं जिसके लिए आप भी सहमत हों।

- iv) आपकी अनुमानित वार्षिक पण्यवर्त के न्यूनतम 20 प्रतिशत के आधार पर गणना की गई माइक्रो और लघु उद्यम (विनिर्माण) कार्यशील पूँजी सीमा उपलब्ध कराएंगे।
- v) उन मामलों में कार्यशील पूँजी सीमा में उपयुक्त अभिवृद्धि के लिए आपके अनुरोध पर विचार करेंगे जहाँ उत्पादन अनुमान से अधिक है अथवा जहाँ कार्यशील पूँजी का प्रारंभिक आकलन अपर्याप्त पाया गया है और आपने उसके लिए आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं।

### घ. गारंटियाँ

यदि आप अपनी देयताओं के लिए कोई गारंटी अथवा किसी अन्य व्यक्ति से कोई दूसरी प्रतिभूति स्वीकार करने के लिए हमें अनुरोध करते हैं तो हम आपके वित्त के बारे में उनको अथवा उनके विधिक परामर्शदाता को गुप्त सूचना देने के लिए आपकी अनुमति चाहेंगे। हम :

- i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपनी प्रतिबद्धता और अपने निर्णय (जहाँ उचित हो हम उनसे इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे जिसमें यह अनुशंसा एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष सूचना के रूप में शामिल होगी) के संभावित परिणामों को समझते हैं हम उन्हें स्वतंत्र कानूनी सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
- ii) उन्हें यह बताएंगे कि गारंटी अथवा अन्य प्रतिभूति देते समय वे तथा आप दोनों उत्तरदायी हो जाते हैं।
- iii) स्वीकृत ऋण की शर्तों/आपके द्वारा ली गई ऋण सुविधा के गारंटर/ गारंटरो के साथ हुए ऋण करार की प्रति आपको देंगे।
- iv) आपके मीयादी ऋणों/मांग ऋणों के वार्षिक लेखा विवरण की प्रति ऋण के गारंटर/गारंटरो को भेजेंगे।

### 5.3 स्वीकृति/अस्वीकृति

हम

- क. ऋण सुविधा/सुविधाओं की स्वीकृति 'के बदले में' किसी अनिवार्य जमा के लिए आग्रह नहीं करेंगे।
- ख. आपको कोई ओवरड्राफ्ट देते समय अथवा आपकी वर्तमान ओवरड्राफ्ट सीमा में कोई वृद्धि करते समय सूचित करेंगे यदि आपका ओवरड्राफ्ट मांग पर अथवा अन्य प्रकार से चुकौती योग्य है।
- ग. शर्तों तथा ऋण सुविधा को नियंत्रित करने वाले सहमत अन्य प्रतिबंधों को लिखित रूप में तैयार करेंगे और इसे विधिवत प्रमाणित करेंगे तथा उसकी एक प्रति आपको देंगे।



- घ. ऋण दस्तावेज और उसकी सूची में उद्धृत सभी अनुलग्नकों की एक-एक प्रति तथा आपके द्वारा निष्पादित सभी ऋण दस्तावेजों की अधिकृत प्रतियों की आपूर्ति आपके खर्चे पर करेंगे।
- ङ. किसी ऋण अथवा ऋण सुविधा के लिए आपका अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाने के कारणों को लिखित रूप में सूचित करेंगे।
- च. क्रम निर्धारण प्रणाली का पालन करेंगे जिसके मानदण्डों का पालन आपको भी करना होगा।
- छ. कोई पूर्व-भुगतान दण्ड लगाये बिना नियत दर वाले 50 लाख रुपए तक के ऋणों के पूर्व-भुगतान की अनुमति देंगे।
- ज. कोई पूर्व-भुगतान दण्ड लगाये बिना अस्थिर दर वाले ऋणों के पूर्व-भुगतान की अनुमति देंगे।
- झ. ऐसी स्वीकृति को नियंत्रित करनेवाली सभी शर्तों के साथ अनुपालन की तारीख से दो कार्य दिवसों के भीतर स्वीकृत ऋण के संवितरण को सुनिश्चित करेंगे।
- ञ. आपको ऋण चुकौती कार्यक्रम दिया जाएगा (ऋण अवधि के लिए मूल धन तथा ब्याज की चुकौती का कार्यक्रम )
- ट. आपको दिए गए स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार सुविधा की आवधिक समीक्षा और नवीकरण को सुनिश्चित करेंगे।

#### 5.4 केंद्रीय रजिस्ट्री

जब आप ऋण सुविधा का उपयोग करेंगे, हम आपको केंद्रीय रजिस्ट्री की कार्य पद्धति तथा किसी उधारदाता या किसी अन्य व्यक्ति जो प्रोपर्टी का लेन-देन करता है, द्वारा उनके अभिलेखों की उपलब्धता की यथार्थता का पता लगाने के बारे में बताएंगे।

#### 5.5 वितरण पश्चात्

हम

- क. केवल ऋण की मंजूरी की शर्तों तथा ऋण करार के अनुसार अपेक्षित अथवा जब बैंक के पास कोई नई/प्रतिकूल सूचना की जानकारी प्राप्त होती है, को छोड़कर आपके कारोबार संबंधी किसी भी कार्य में दखलअंदाजी करने से बचते हैं।
- ख. हमारी निगरानी प्रक्रिया में रचनात्मक रहने का और हमारे साथ आपके लेनदेन में आ रही वास्तविक कठिनाइयों को सहानुभूतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करते हैं।
- ग. बाद में किसी अन्य उधारदात्री संस्था से आप ऋण सुविधा लेते हैं तो उसके बारे में आप हमें सूचित करेंगे
- घ. निरंतर आधार पर आपसे निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना
  - (i) आपकी कारोबार योजना के पूर्वानुमान की तुलना वास्तविक परिणामों से करना।
  - (ii) आपकी कारोबार योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं की प्रगति।
  - (iii) तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता तथा अन्य सहायक दस्तावेजों जैसे वार्षिक लेखे।

(iv) आपके लेनदारों और देनदारों का आयु-वार विवरण और उसमें लगी रकम।

- ड. सामान्य सुरक्षा के अनुसार आपकी सीमाओं तक आहरण की अनुमति देना।
- यदि आपकी परिस्थितियों में कोई बदलाव आता है तो हमें आवश्यक हो ऐसी कोई नई जानकारी के बारे में आपसे चर्चा करना।
- छ. उधार खाते के अंतरण के संबंध में आपसे अथवा बैंक/वित्तीय संस्था जो खाते को टेक-ओवर करने का प्रस्ताव रखता है से अनुरोध प्राप्त होने पर दो सप्ताह के भीतर उसकी सहमति अथवा असहमति सूचित करना।
- ऋण की चुकौती पर सभी प्रतिभूतियों को तुरंत और किसी भी स्थिति में सहमत या संविदागत सभी देय राशियों की चुकौती के बाद एक सप्ताह में जारी किया जाएगा। यदि किसी अन्य दावे के लिए किसी अधिकार का निपटान किया जाना है, अन्य दावों के बारे में सभी विवरणों के साथ आपको उचित सूचना दी जाएगी तथा संबंधित दावे का निपटान/ भुगतान होने तक प्रतिभूतियों/दस्तावेजों/गिरवी रखी हुई संपत्ति का हक हम अपने पास रखेंगे।
- जिस दिन आपसे अनुरोध प्राप्त होता है उसी दिन गिरवी/सुपुर्दगी प्रभावी करना।
- ज. प्रतिभूति स्थापित करने के 24 घण्टों के भीतर आहरण अधिकार में वृद्धि प्रदान करना।
- ट. ब्याज लगाने, शुल्क और प्रभारों से आपके खाते में उत्पन्न नामे की जानकारी आपको देना।
- ठ. परिचालन खातों के आवधिक विवरण प्रदान करने अलावा आपके मीयादी/मांग ऋणों के खातों के वार्षिक विवरण भी प्रदान करेंगे।
- ड. ऋण विवरण अधिक बार, यदि अपेक्षित होगा, टैरिफ सूची में निर्दिष्ट लागत पर प्रदान करेंगे।
- एक अथवा अधिक निम्नलिखित तरीकों के माध्यम से आपके द्वारा की गई प्रगति की निगरानी करना
- (i) आपके द्वारा धारित आवधिक स्टॉक की संवीक्षा करना।
- (ii) हमारे पास रखे आपके खातों के लेनदेनों पर नजर रखना।
- (iii) स्टॉक और/अथवा वित्तपोषित आस्तियों की जाँच के लिए आपके परिसर में हमारे स्टाफ अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि दोनों में से किसी एक द्वारा दौरा।
- (iv) □हाँ कहीं भी आवश्यक हो, आपका कारोबार कैसे चल रहा है इसकी बाजार रिपोर्ट प्राप्त करना।
- ण. आपके खातों के एनपीए होने से पहले खाते की स्थिति के बारे में आपको पत्र/मेल या एसएमएस के माध्यम से सूचित करने का प्रयास करेंगे।
- त. यदि हम भुगतान वापस लेने/बढ़ाने या करार के अधीन कार्य-निष्पादन या अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ लेने का निर्णय करते हैं तो पर्याप्त समय पूर्व आपको इसकी सूचना देंगे।

## 5.6 गैर-निधि आधारित सुविधाएं

- क. हम आपको साखपत्र (एलसी) के जारीकरण, सूचित करने, पुष्टि करने, बातप्रीत करके, रियायत आदि के माध्यम से पूँजीगत उपकरण अथवा कच्चा माल/उपभोग्य वस्तुएं आदि की खरीद के लिए **गैर-निधि आधारित सुविधाएं** प्रदान (ऑफर) कर सकते हैं। साख पत्र, गारंटी, वसूली जैसी सुविधाएं राष्ट्रीय कानून के अलावा समय-समय पर प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईआईसी) के लागू प्रकाशनों तथा संबंधित नियमों से नियंत्रित होती हैं तथा उसके लिए आप सहमत होंगे।
- ख. हम आपके वित्तीय दायित्व के लिए गारंटीकर्ता रह सकते हैं।
- ग. हम निर्यात बिलों और घरेलू बाहरी व्यापार और सेवा बिलों के संग्रहण में आपकी सहायता कर सकते हैं।

## 5.7 बीमा

- क. यदि हम किसी बीमा कंपनी के एजेंट के रूप में किसी प्रकार का बीमा प्रदान करते हैं तो उसकी सूचना आपको देंगे।
- ख. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन बीमा उत्पादों को लेने के लिए हम आपकी लिखित अनुमति प्राप्त करें।
- ग. यदि आपके द्वारा लिए गए ऋणों के लिए जो संपत्ति गिरवी रखी है, उसके लिए हम किसी विशिष्ट बीमा प्रदाता से बीमा कराने के लिए आप पर  और नहीं डालेंगे।

## 5.8 वित्तीय कठिनाइयाँ

हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं

**5.8.1** हम वित्तीय कठिनाइयों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक और सक्रियता से विचार करेंगे। सामान्यतः पहले आप समस्याओं की पहचान करेंगे और शीघ्रतिशीघ्र हमें सूचित करेंगे। यदि हमें समस्या का पता चलता है तो हम आपको लिखित रूप से सूचित करेंगे। यदि त्वरित सूचित किया जाना आवश्यक है तो हम आपको फोन, फैक्स अथवा ई-मेल से संपर्क करेंगे।

**5.8.2** इस सूची में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो हमारी चिंताओं के विषय हो सकते हैं। खासकर यदि आप हमें यह नहीं समझाते हैं कि क्या हो रहा है।

- क. यदि वाणिज्यिक उत्पादन शुरूकरने में विलंब होता है और लागत बढ़ गई हो आदि।
- ख. यदि स्टॉक विवरण, नवीकरण आंकड़े जैसी आवधिक सूचना प्रस्तुत करने में असाधारण/अत्यधिक देरी हो।
- ग. यदि आपकी नकद ऋण/चालू खातों में अधिक बार चेक वापसी की घटना हों।
- घ. यदि आप बार-बार अनुमत स्वीकृत सीमा से अधिक खर्च करते हैं।

- ड. यदि आपके द्वारा उचित स्पष्टीकरण दिए बिना आपके कारोबार आवर्त में भारी उतार-  
 उतार होता है।
- यदि अनुचित लंबे समय के लिए काम रूक गया हो/स्थगित किया गया हो।
- छ. यदि हानि होती है।
- यदि आप अचानक कारोबार साझेदार अथवा सह-प्रायोजक अथवा बड़ा ग्राहक अथवा कर्मचारी को खो देते हैं।
- यदि आप अपने कारोबार का बड़ा हिस्सा बेच देते हैं।
- ज. यदि आप हमारे साथ हुई सहमति के अलावा अन्य किसी प्रयोजनों के लिए ऋण सुविधा/सुविधाओं का प्रयोग करते हैं अथवा यदि आप निधि का प्रयोग सहमति हुए कारोबार के अलावा अन्य किसी प्रयोजनों के लिए करते हैं।
- ट. यदि आप निर्धारित अंतराल में ब्याज नहीं भरते हैं।
- ठ. यदि आप सहमत ऋण चुकौती की समय-अवधि का अनुपालन करने में विफल होते हैं।
- ड. यदि आपके ग्राहकों पर आपके द्वारा आहरित बिल बार-बार बिना भुगतान लौटा दिए  जाते हैं।
- यदि आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा आप पर आहरित बिल का बार-बार भुगतान नहीं करते हैं।
- ण. यदि आपकी ओर से हमारे द्वारा दी गई गारंटी का वसूली के समय भुगतान नहीं किया  जाता है।
- त. यदि आपके खाते में आपकी ऋण बही/देनदारों की मात्रा आवर्त के साथ सामंजस्य से नहीं बढ़ी है।
- थ. यदि सभी बिक्रियाँ आपके खाते के माध्यम से नहीं की जाती हैं।
- द. यदि आप ऋण करार में दिए गए शर्तों का अनुपालन नहीं करते हैं।
- ध. यदि आप सहमत जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं करते हैं।
- न. यदि दूसरा कोई लेनदार आपके कारोबार के विरुद्ध समापन याचिका अथवा अन्य विधि कार्रवाई करता है।

**5.8.3** हम आपकी कठिनाइयों को दूर करने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। आपके सक्रिय सहयोग से आपकी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम एक योजना बनाएंगे और हमारे बीच हुई सहमति को हम आपको लिखित रूप में बताएंगे।

**5.8.4** हम आपको ऋण परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे ताकि हम आपकी वित्तीय समस्याओं को हल करने में आपकी सहायता कर सकें।

### 5.8.5

- क. यदि आप मुसीबत में हैं तो यदि आप चाहें तो हम आपके परामर्शदाता के साथ मिलकर काम करेंगे। यह आवश्यक है कि आप नेकनीयत के कार्य करेंगे, गतिविधियों से हमें अवगत कराते रहेंगे, हमारे साथ हुई सहमति का पालन करेंगे और समय रहते आवश्यक परिवर्तन करने के लिए तैयार रहेंगे।
- ख. आपकी समस्याओं को समझने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने हेतु हम आपसे और अधिक वित्तीय जानकारी/प्रतिबद्धताएं माँग सकते हैं।

### 5.9 बीमार माइक्रो और लघु उद्यमों की देखरेख और ऋण पुनर्संरचना

यदि आपका उधार खाता छह महीने से अधिक अवधि के लिए **अवमानक** रहता है अथवा आपकी इकाई को बीमार माना जाता है तो हम देखरेख/ऋण पुनर्संरचना पर विचार करेंगे।

पुनर्वास/ऋण पुनर्संरचना के लिए आपके अनुरोध की जाँच करने के लिए हम

- क. देखेंगे कि क्या आप अर्थक्षम/संभाव्य रूप से अर्थक्षम हैं।
- ख. यदि आप अर्थक्षम/संभाव्य रूप से अर्थक्षम पाए जाते हैं तो हम आपके पुनरुद्धार के लिए सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ करेंगे।
- ग. यदि आपकी इकाई संभाव्य रूप से अर्थक्षम है और समूहन/बहुविध बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत है और यदि हमारे पास अधिकतम बकाया हिस्सा है हम पुनर्संरचना पैकेज तैयार करेंगे।
- घ. **पुनर्वास पैकेज** तैयार करेंगे जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक शर्तों के अनुरूप आपका अंशदान भी शामिल होगा और आपके अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 60 दिनों की अवधि के भीतर उसका कार्यान्वयन किया जाएगा।  
यदि हम यह नहीं सोचते हैं कि पुनर्वास योजना सफल होगी, तो हम उसका कारण बताएंगे और आपको तथा आपके परामर्शदाताओं को अन्य विकल्पों पर विचार करने में सहायता करेंगे।  
यदि हम किसी सहमति पर नहीं पहुँचते हैं तो हम यह स्पष्ट कर देंगे कि हम आपकी सहायता करने में क्यों असमर्थ हैं और हम कब अपना समर्थन वापस लेंगे।

#### 5.9.1 बकाया राशि का निपटान

- क. यदि हम बकाया राशि की चुकौती के लिए आपको एक बारगी निपटान (ओटीएस)का प्रस्ताव देते हैं, हम प्रस्ताव के विवरण आपको बताएंगे।
- ख. हम आपको प्रस्तावित ओटीएस की शर्तों को लिखित रूप में बताएंगे।
- ग. यदि ओटीएस पर सहमति होती है, हम आपको इस प्रकार के निपटान से ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा अनुरक्षित आपके साख इतिवृत्त पर पड़ने वाले परिणामों के बारे में बताएंगे।

### 6 बकाया राशि की वसूली तथा प्रतिभूति पुनः अधिग्रहण

#### 6.1 बकाया राशि की वसूली

- क. ढुब भी हम आपको ःण देंगे, हम आपको चुकौती की राशि, अवधि, आवधिकता बताते हुए ढुकौती की प्रक्रिया समझाएंगे। तथापि, यदि आप चुकौती अनुसूची का पालन नहीं करते हैं, तो प्राप्य राशि वसूल करने के लिए, देश के कानून के अनुसार निर्धारित प्रणाली का पालन किया जाएगा।
- ख. इस प्रणाली में आपको नोटिस भेजकर या व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलकर याद दिलाना और/या यदि कोई प्रतिभूति है तो उस पर पुनःअधिकार करना शामिल होगा।
- ग. ढूक के मामले में हम आपका मामला वसूली एजेंट के पास भेजेंगे। हम आपको सूचित करेंगे कि वसूली शुरूकी गई है।
- घ. वसूली कार्रवाई शुरूकिए ढूने पर हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि आपको इस संबंध में शिकायत करनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
- ङ हमारे वसूली एजेंटों द्वारा अनुचित तरीके अपनाए जाने के बारे में आपकी शिकायत पर हम उसकी जांच करेंगे। बैंक के प्रतिनिधि/वसूली एजेंट के अनुचित व्यवहार या कोड के उल्लंघन के बारे में आपसे कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस मामले की जांच की जाएगी तथा शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 कार्य दिनों के अंदर ढूच के निष्कर्षों की सूचना आपको देंगे एवं जहां उचित होगा तो हानि की प्रतिपूर्ति,यदि कोई हो, आपको की जाएगी।

## 6.2 बकाया राशि की वसूली तथा प्रतिभूति पुनः अधिग्रहण संबंधी नीति

- क. हमारी वसूली नीति शिष्टाचार, उचित व्यवहार और समझाने बुझाने पर गठित है। हम ग्राहक के विश्वास को विकसित करने तथा दीर्घावधि तक संबंध बनाये रखने में विश्वास रखते हैं। नीति के एक भाग के रूप में-
  - i. हम आपको बकाया राशि से संबन्धित सभी जानकारी देंगे तथा बकाया राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त सूचना देने का प्रयत्न करेंगे।
  - ii. ढुब हम आपके विरुद्ध वसूली कार्रवाई शुरूकरेंगे,उसकी लिखित सूचना देंगे।
  - iii. हमारे द्वारा नियुक्त वसूली एजेंसी फर्मों/कंपनियों के विवरण हम अपनी वेबसाइट पर डालेंगे।
  - iv. हम, अनुरोध पर, एजेंसी फर्मों/कंपनियों के विवरण अपनी शाखाओं पर भी उपलब्ध कराएंगे।
  - v. हमारा स्टाफ या अन्य कोई व्यक्ति जिसे प्राप्य राशि के समाहरण या /और प्रतिभूति के पुनः अधिकार में हमारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया हो, वह आपको स्वयं की पहचान बतायेगा। इन प्रयोजनों के लिए हमारा प्रतिनिधित्व करनेवाला प्राधिकृत कोई व्यक्ति हमारे द्वारा जारी अधिकार पत्र दिखायेगा तथा अनुरोध करने पर बैंक द्वारा या बैंक के प्राधिकार के अंतर्गत जारी पहचान पत्र दिखायेगा /दिखायेगी।
  - vi. चूक वाले मामले वसूली एजेंसियों को देने से पहले उन्हें ढूच का सिस्टम हमारे पास है ताकि आपको हमारी ओर से किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
- ख. वसूली या /और प्रतिभूति को पुनः अधिकार में हमारी बैंक का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्राधिकृत सभी स्टाफ सदस्य या अन्य कोई व्यक्ति समुचित सावधानी बरतेंगे तथा निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे:

- i. सामान्यतया आपसे आपके कारोबार/व्यवसाय के स्थान पर संपर्क किया जायेगा, यदि आप अपने कारोबार/व्यवसाय के स्थान पर उपलब्ध नहीं होंगे,आपके आवास पर या यदि कोई विशेष स्थान नहीं है तो आपके द्वारा प्राधिकृत एजेंट की पसन्द के स्थान पर आपसे संपर्क किया जायेगा।
  - ii. पहचान एवं प्रतिनिधित्व करने के अधिकार के बारे में आपको तुरंत ही बताया जायेगा।
  - iii. आपकी प्राइवैसी तथा प्रतिष्ठा का आदर किया जायेगा।
  - iv. आपसे वार्तालाप शिष्टता से किया जायेगा।
  - v. सामान्यतः हमारे प्रतिनिधि आपसे 07.00 बजे और 19.00 बजे के बीच संपर्क करेंगे जब तक कि आपके कारोबार की विशेष परिस्थितियों के कारण कोई अन्य समय की स्वीकृत हो।
  - vi. एक विशेष समय या किसी विशेष स्थान पर कॉल्स न करने के आपके अनुरोध का जहां तक संभव हो आदर किया जायेगा।
  - vii. कॉल्स का समय और संख्या तथा वार्तालाप की विषय-वस्तु को लिख लिया जायेगा।
  - viii. देय राशि संबंधी विवाद या मतभेदों को आपस में स्वीकार्य तथा विधिवत रूप से निपटाने में पूरी सहायता दी जायेगी।
  - ix. देय राशि के समाहरण के लिए आपके स्थान पर दौरा करते समय शिष्टता और शालीनता का पालन किया जायेगा।
  - x. अनुचित अवसरों जैसे परिवार में शोक या अन्य कोई विपदाओं पर प्राप्य राशि के समाहरण के लिए कॉल करने/दौरा करने से बचा जायेगा।
- ग. हम कानून के अनुसार प्रतिभूति पुनःअधिग्रहण नीति का पालन करेंगे। नीति की एक प्रतिलिपि बेवसाइट पर डाली जाएगी तथा अनुरोध करने पर नीति की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जायेगी।

## 7. जमा खाते

- क. आप हमारे पास चालू खाता, मीयादी जमाराशि खाता जैसे विभिन्न प्रकार के खाते खोल सकते हैं।
- ख. जहां कहीं इसकी अनुमति हो वहां आप उपर्युक्त खाते नामांकन सुविधा के साथ या नामांकन सुविधा के बिना खोल सकते हैं।
- ग. हम खाता खोलने के समय पूर्वगामी खातों तथा साथ ही नामांकन सुविधाओं के परिणामों को स्पष्ट कर देंगे।
- घ. हम आपको खाता खोलते समय, जहां कहीं लागू हो/अनुमत हो, नकदी जमा सुविधा, विस्तृत (स्विप) खाता तथा हमारे द्वारा प्रस्तुत इसी प्रकार के अन्य उत्पादों तथा उनके परिणामों एवं संबंधित कार्यविधि के बारे में बताएंगे।

## 7.1 खाता खोलना और जमा खातों का परिचालन

कोई भी खाता खोलने से पहले हम

- क. 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवायसी) के अनुसार अपेक्षित बैंक के दिशा निर्देशों से संबंधित सभी सावधानी संबंधी उपाय बरतेंगे।
- ख. आपको इसके लिए जरूरी सभी दस्तावेजों या साक्ष्य प्रस्तुत या उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे।
- ग. हमारी केवायसी, एंटी मनी लांडरिंग या अन्य किसी सांविधिक अपेक्षा का पालन करने के लिए जरूरी सूचना ही प्राप्त करेंगे। यदि किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, तो वह अलग से मांगी जायेगी और ऐसी अतिरिक्त जानकारी मांगने के लिए हम उसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से बतायेंगे। यह जानकारी उपलब्ध कराना स्वैच्छिक होगा,  तक कि कानून द्वारा ऐसा करना आवश्यक न हो।
- घ. खाता खोलने के फार्म और अन्य सामग्री आपको उपलब्ध करायेंगे। केवायसी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसमें वांछित आवश्यक सूचना का विवरण शामिल होगा और सत्यापन तथा/या रिकार्ड के लिए प्रस्तुत किये जानेवाले दस्तावेजों का समावेश होगा।
- ङ. जमा खाता खोलते समय संबंधित औपचारिकताओं के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे और आपके द्वारा वांछित आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करेंगे।
- च. आपके द्वारा ली जाने वाली जमा सुविधा को नियंत्रित करने वाली अति महत्वपूर्ण शर्तें आपको देंगे।
- छ. खाता खोलते समय हम आपको निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीसीजी) की कतिपय सीमा और शर्तों के अधीन, प्रचलित बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध बीमा कवर के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

## 7.2 आपके खाते को बदलना

- क. यदि आप अपना चालू खाता बंद करने का निर्णय लेते हैं तो हम आपसे अनुदेश प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के अंदर आपका खाता बंद कर देंगे।
- ख. यदि आप हमारे बैंक की किसी दूसरी शाखा में अपना खाता अंतरित करना चाहते हैं तो हम ऐसा करेंगे। नई शाखा में आपका खाता आपसे अनुरोध प्राप्त होने के बाद एक सप्ताह के भीतर परिचालित हो जाएगा, बशर्ते आप नई शाखा में अपेक्षित केवायसी औपचारिकताओं का अनुपालन करें।  से ही खाता परिचालन में आ जाता है, हम आपको उसकी सूचना देंगे। नई शाखा को आपके स्थाई अनुदेशों/राशि सीधे नामे डालने संबंधी अनुदेशों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित कर दिया जाएगा।
- ग. जब आप अपना चालू खाता हमारे पास या हमसे अन्यत्र कहीं और अंतरित करना चाहते हैं तो उस समय यदि हमारी किसी गलती के कारण या होनेवाले अनावश्यक विलम्ब के फलस्वरूप आपको कोई प्रभार अदा करना पड़े तो हम उसे रद्द/वापस कर देंगे।



### 7.3 जब आप जमा खाता खोलते हैं

उस समय

- क. हम आपको एक निश्चित अवधि में निःशुल्क किए जा सकनेवाले लेनदेनों, नकदी आहरणों आदि की संख्या के बारे में बताएंगे।
- ख. यदि आप उक्त सीमा को पार करते हैं तो इस संबंध में लगाए जानेवाले प्रभार यदि कोई हों की हम, की सूचना आपको देंगे। ऐसे प्रभारों के ब्यौरे टैरिफ सूची में शामिल किये जाएंगे।
- ग. हम आपकी जमाराशियों पर अदा किए जानेवाले ब्याज की दर, किस प्रकार से उसकी गणना की गई तथा उसकी आवधिकता सूचित करेंगे।

### 7.4 न्यूनतम शेष राशि

बैंक खाता या अन्य किसी प्रकार के जमा खाते जैसे जमा उत्पादों के लिए हम आपको

- क. ऐसे खातों के परिचालन पर लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार रखी जानेवाली न्यूनतम शेष राशि के बारे में बताएंगे।
- ख. आपके द्वारा खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने में चूक होने के मामले में लगाए जानेवाले प्रभारों के बारे में बताएंगे। लगाए जानेवाले अन्य प्रभारों के ब्यौरे टैरिफ (दर) सूची में शामिल किए जाएंगे।
- ग. न्यूनतम राशि अनुरक्षण के बारे में परिवर्तन होने पर उसकी सूचना 30 दिन पहले देंगे। सूचना अवधि के दौरान निर्धारित बढ़ी हुई न्यूनतम राशि का अनुरक्षण न होने पर हम कोई प्रभार नहीं लेंगे।

### 7.5 प्रभार

बैंक बुक जारी करने, खातों के अतिरिक्त/डुप्लीकेट विवरण, डुप्लीकेट पासबुक, प्रदत्त चेकों की प्रतिलिपियां, फोलियो प्रभार, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, हस्ताक्षर का सत्यापन, अपर्याप्त जमाराशि के कारण चेक लौटाने, अधिदेश या खाते के प्रकार में परिवर्तन, भुगतान रोक, स्थायी अनुदेश/उन्हें रद्द करना आदि से संबंधित विशिष्ट प्रभारों को हमारी टैरिफ सूची में शामिल किया जायेगा। दी गयी रियायत या छूट को रियायत/छूट की मूल वैधता अवधि के दौरान वापस नहीं लिया जायेगा।

(देखें उक्त पैरा 3.3)

### 7.6 मीयादी जमाराशियां

#### 7.6.1 जमाराशियों का नवीकरण

- क. हम अवधि की समाप्ति पर आपकी जमाराशि के निपटान के लिए आवेदन फॉर्म पर अनुदेश प्राप्त करेंगे।
- ख. यदि अवधि की समाप्ति पर जमाराशियों के निपटान के बारे में कोई अनुदेश नहीं है तो आपको पत्र/मेल/एसएमएस से परिपक्वता की तारीख के बारे में पहले से सूचित करेंगे।

ग. हम नवीकृत की जाने वाली िमा राशि पर लागू ब्याज के बारे में भी सूचित करेंगे।

### 7.6.2 मीयादी जमाराशि का समय से पूर्व आहरण

हम

- क. अवधि की समाप्ति से पहले मीयादी जमाराशि के आहरण संबंधी कार्यविधि की सूचना आपको देंगे;
- ख. मीयादी जमाराशि की अवधि समाप्ति से पहले आहरित करने से संबंधित ब्याज दर नीति आपको बतायेंगे।

### 7.6.3 अतिदेय मीयादी जमाराशियों का नवीकरण

अवधि समाप्त होने की तारीख के बाद जमाराशियों का नवीकरण करने की स्थिति में उस पर लागू ब्याज दर के बारे में हम आपको सूचित करेंगे।

### 7.6.4 िमाराशियों पर अग्रिम

हम आपको मीयादी जमाराशियों पर उपलब्ध ऋण/ओवरड्राफ्ट की सुविधा के बारे में बतायेंगे।

### 7.7 विवरण

- क. आप अपने खाते पर नज़र रख सकें तथा उसकी प्रविष्टियों की जांच कर सकें उसके लिए आपकी सहायता हेतु हम आपको खाते का मासिक विवरण डाक द्वारा उपलब्ध करायेंगे, जब तक कि आपका जिस प्रकार का खाता है उसके लिए वह अनुचित नहीं हो (जैसे जिस खाते के लिए आपको पासबुक दी जाती है)। यदि आप चाहें, तो हम आपके खाते का विवरण ई-मेल या हमारी सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग सेवा के माध्यम से भी आपको भेजेंगे बशर्ते हमारे पास ऐसी सुविधा उपलब्ध हो।
- ख. आप आम तौर पर अपने खाते के लिए उपलब्ध विवरण के अलावा भी कभी भी विवरण उपलब्ध कराने के लिए हमसे कह सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको प्रभार अदा करना होगा। इस प्रभार का टैरिफ सूची में उल्लेख होगा।
- ग. आप काउंटर पर अपने पिछले कुछ लेनदेन देख सकते हैं। आप अपने लेनदेन 'एटीएम' पर या अपने इंटरनेट खाते के द्वारा भी देख सकते हैं बशर्ते वहां ऐसी सुविधा उपलब्ध हो।

### 7.8 अप्रवर्ती /निष्क्रिय खाते

हम

- क. खाता खोलते समय आपको बतायेंगे कि खाते को परिचालित न करने की स्थिति में कितनी अवधि के बाद, आपका खाता निष्क्रिय/अप्रवर्ती खाता हो जायेगा। आपके खाते को निष्क्रिय/अप्रवर्ती या अदावी खाते के रूप में वर्गीकृत करने तथा उसके परिणामों के बारे में भी हम आपको कम से कम तीन महीने पहले बता देंगे;
- ख. यदि आप खाते को सक्रिय बनाना चाहते हैं तो उस संबंध में अपनाई जानेवाली कार्यविधि के बारे में आपको बतायेंगे।
- ग. हम निष्क्रिय खाते को पुनः सक्रिय करने के लिए कोई प्रभार नहीं लेंगे।

## 7.9 आपका खाता बंद करना

सामान्य परिस्थितियों में, आपको कम-से-कम 30 दिनों की नोटिस दिये बिना हम आपका खाता बंद नहीं करेंगे। 'असामान्य' परिस्थितियों के उदाहरणों में, **खाते का अनुचित परिचालन** आदि शामिल है। ऐसे सभी मामलों में, आपको अपने द्वारा पहले ही जारी किए गए चेकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी तथा आप ऐसे खातों पर कोई नया चेक जारी नहीं करेंगे।

## 7.10 समाशोधन चक्र/वसूली सेवाएं

- क. हम आपको समाशोधन लिखतों को प्रस्तुत करने के बाद, आप निधि कब आहरित कर सकेंगे और हमारी **क्रिस वसूली नीति** के अनुसार आप विलंबित ब्याज के लिए कब पात्र होंगे, आदि ब्योरों सहित आपको स्थानीय लिखतों और बाहरी लिखतों से संबंधित समाशोधन चक्र के बारे में बतायेंगे। यह सूचना हमारी वेबसाइट पर तथा शाखा में भी देख सकते हैं।
- ख. लिखतों की वसूली में कोई देरी होने पर, आपसे कोई मांग आने की प्रतीक्षा किए बिना, आपको वसूली नीति/**मुआवजा नीति** के अनुसार आपको मुआवजा देंगे।
- ग. यदि हम आपको बाहरी चेकों के लिए तत्काल क्रेडिट सुविधा प्रदान करते हैं तो उन पर लागू शर्तों जैसे आपके द्वारा प्रस्तुत लिखतों के लिए क्रेडिट की सीमा, खातों का संतोषपूर्ण परिचालन, आदि के ब्यौरे हम आपको प्रदान करेंगे।
- घ. हम अपनी चेक वसूली नीति के अनुसार, कार्रवाई प्रारंभ करेंगे और आपके द्वारा प्रस्तुत चेक/लिखत के मार्ग में खो जाने की स्थिति में, उस चेक/लिखत की अनुलिपि (डुप्लीकेट) प्राप्त करने में पूरी सहायता प्रदान करेंगे।
- ङ. जब आप अपना खाता खोलेंगे और जब कभी हमें आप उपर्युक्त जानकारी के लिए संपर्क करेंगे तो हम आपको उक्त जानकारी प्रदान करेंगे। यदि हमारी नीति में कोई परिवर्तन होता है तो हम संशोधित नीति को अपनी वेबसाइट और अपनी सभी शाखाओं में प्रदर्शित करेंगे।

## 7.11 नकदी लेनदेन

- क. हां भी आपका खाता हो, वहां हम काउंटरो पर चेक/नकदी को स्वीकार करेंगे और नकदी प्रदान करेंगे।
- ख. हम भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार, अपनी ऐसी शाखाओं में पुराने/कटे-फटे नोटों और/अथवा छोटे सिक्कों की अदला-बदली करेंगे।
- ग. निर्दिष्ट राशि से अधिक के लेनदेनों के लिए आपको अपना **पैन** (पीएएन) नंबर हमें प्रस्तुत करना होगा।

## 7.12 प्रत्यक्ष नामे (डेबिट) और स्थायी अनुदेश

- क. इस प्रत्यक्ष नामे (डेबिट) और स्थायी अनुदेश किस प्रकार से काम करते हैं और आप

किस प्रकार से उन्हें दर्ज /रद्द कर सकते हैं और उससे संबंधित प्रभारों को हम आपको खाता खोलते समय बता देंगे । समय-समय पर संशोधित दर सूची के अनुसार प्रभार लगाये जायेंगे।

- ख. इस प्रत्यक्ष नामे [जैसे कि **इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस)**] के लिए आपके द्वारा दिये गये अधिदेशों और अन्य स्थायी अनुदेशों पर कार्रवाई करेंगे। अधिदेश का पालन करने में किसी विलंब या असफलता के कारण हुई वित्तीय हानि या अतिरिक्त लागत के लिए हम मुआवजा नीति के अनुसार आपको मुआवजा देंगे। हमारी मुआवजा नीति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि आपके खाते में अपर्याप्त जमा राशि के कारण, हम अधिदेश का पालन नहीं कर पाते, तो समय-समय पर संशोधित टैरिफ सूची के अनुसार हम प्रभार लगायेंगे ।
- ग. प्रत्यक्ष नामे के अन्तर्गत जैसे ही यह निर्धारित हो जाता है कि आपके खाते को अप्राधिकृत/गलती से नामे कर दिया गया है, हम ब्याज सहित आपके खाते में राशि लौटा देंगे तथा हम बैंक की मुआवजा नीति के अनुसार आपको मुआवजा देंगे ।

### 7.13 भुगतान रोकने संबंधी सुविधा

- क. हम आपके द्वारा जारी किये गये चेकों के संबंध में, भुगतान रोकने संबंधी अनुदेशों को स्वीकार करेंगे। आपके अनुदेश प्राप्त होने के तुरंत बाद, हम उसकी पावती देंगे और कार्रवाई करेंगे बशर्ते इन चेकों को हमने पहले ही समाशोधित न कर दिया हो।
- ख. हम, भुगतान रोकने संबंधी अनुदेशों पर कार्रवाई करने के लिए यदि कोई प्रभार होंगे, तो लगायेंगे और संशोधित दर सूची में उसे शामिल करेंगे ।
- ग. यदि भुगतान रोकने संबंधी अनुदेशों की प्राप्ति के बाद, किसी चेक का भुगतान हो जाता है, तो हम बैंक की मुआवजा नीति के अनुसार आपको मुआवजा देंगे ।

टैरिफ

### 7.14 आपके द्वारा जारी चेक/नामे अनुदेश

- क. हम आपके खातों से प्रदत्त मूल चेक/नामे (डेबिट) अनुदेश या उनकी प्रतियां या उनके चित्र ऐसी अवधि के लिए रखेंगे जैसे कि कानून द्वारा वांछित हो;
- ख. हमारे पास रिकार्ड उपलब्ध होने पर, साक्ष्य के रूप में चेक/नामे अनुदेश या उनकी प्रति देंगे। आपके खाते से प्रदत्त चेक/नामे अनुदेशों के संबंध में विवाद होने पर, यदि अनुरोध किए गए चेक/नामे अनुदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर किया जाता है, तो कोई प्रभार नहीं लगाया जायेगा और चेक/नामे अनुदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद, दर सूची के अनुसार प्रभार लगाये जायेंगे;
- ग) हम आपको बतायेंगे कि हम **अप्रदत्त चेकों** तथा **आउट आफ डेट (स्टेल)** चेकों पर कैसे कार्रवाई करते हैं । आपके खाते में शेष जमाराशि न होने के कारण, चेक अप्रदत्त लौटाये जाने पर हम प्रभार लगायेंगे। प्रभार के विवरण समय-समय पर संशोधित टैरिफ सूची में शामिल किये जायेंगे ।

## 7.15 शाखा बंद करना / शिफ्ट करना

यदि हम अपनी शाखा बंद करना या शिफ्ट करना चाहेंगे, तो हम आपको

- क. आपके केन्द्र पर किसी भी बैंक की कोई शाखा कार्यरत न होने पर या यदि बैंकिंग सेवाएं देना जारी रखने में असमर्थ रहेंगे तो दो महीने का नोटिस देंगे
- ख. अन्य मामलों में एक महीने का नोटिस देंगे।
- ग. यदि हम शाखा शिफ्ट करते हैं तो हम अपनी शाखा के नए स्थान का पता देंगे।
- घ. शाखा के कार्य समय में कोई परिवर्तन होने पर उसे हम आपको सूचित करेंगे।

## 7.16 दिवंगत खाता - धारकों के संबंध में दावों का निपटान

हम मृत खाता-धारकों के खातों के निपटान हेतु सरल प्रक्रिया का पालन करेंगे तथा एमएसई शाखाओं के मामले में ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के कोड के प्रावधानों का पालन करेंगे।

## 8. आपके खाते को सुरक्षित रखना

### 8.1 सुरक्षित और भरोसेमंद बैंकिंग और भुगतान प्रणाली

हम बैंकिंगसिस्टम के रूप में कार्य करेंगे ताकि आप सुरक्षित और भरोसेमंद बैंकिंग और भुगतान प्रणाली का लाभ उठा सकें। सुरक्षा व्यवस्थाओं के रूप में जहां आवश्यक होगा वहां निकट से निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी लगायेंगे।

### 8.2 हमें अद्यतन जानकारी प्रदान करना

इनके बारे में जब भी कोई परिवर्तन हो तो कृपया हमें यथाशीघ्र सूचित करें :

- क. नाम ;
- ख. पता;
- ग. फोन नंबर ; या
- घ. ई-मेल का पता (यदि इसके माध्यम से आपसे संपर्क किया जाता हो) ।

### 8.3 अपने खाते की जांच करना

- क. हम इसकी सिफारिश करते हैं कि आप अपने विवरण या पासबुक की नियमित जांच करें। यदि आपको कोई प्रविष्टि गलत लगे तो उसके बारे में हमें यथाशीघ्र बताएं ताकि हम इसकी जांच कर सकें। सीधे किए जानेवाले डेबिट और स्थाई अनुदेशों की नियमित जांच से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि धन वहीं जा रहा है जहां आप भेजना चाहते हैं।
- ख. यदि हमें आपके खाते के किसी लेनदेन की जांच की आवश्यकता हो तो आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे और यदि हम पुलिस / जांच एजेंसियों को शामिल करना चाहते हैं तो आप उन्हें भी सहयोग प्रदान करें।

## 8.4 ध्यान रखना

धोखाधड़ी से बचने तथा अपने खाते को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी चेकबुक, पासबुक, कार्ड पिन, पासवर्ड तथा अन्य सुरक्षा जानकारी का ध्यान रखें। कृपया सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित सलाह का पालन करते हैं :

### क. ये न करें

- (i) क्रिबुक और एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड एक साथ रखना ;
- (ii) खाली चेक पर हस्ताक्षर करके रखना;
- (iii) पिन, पासवर्ड या अन्य सुरक्षा जानकारी को लिख कर रखना या कहीं दर्ज करना।
- (iv) अपने खाते की जानकारी, पासवर्ड, कार्ड, पिन या अन्य सुरक्षा जानकारी के ब्यौरे किसी अन्य को देना ।

### ख. ये सदैव करें

- i) यदि आप डाक के माध्यम से आप चेक भेज रहे हैं तो जिस व्यक्ति को चेक भुगतान किया जा रहा है उसका नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें, यह धोखाधड़ी को रोकने के में सहायता करेगा । हम सिफारिश करते हैं कि ऐसे चेक लिखते समय पीछे की ओर कार्बन पेपर रखें ताकि रासायनिक फेराफेरीसे बचा जा सके।
- ii) यदि आप पिन बदलते हैं तो नया पिन सावधानीपूर्वक चुनें ।
- iii) अपना पिन, पासवर्ड तथा अन्य सुरक्षा जानकारी को याद कर लें और इस संबंध में जैसे ही कोई लिखित सूचना प्राप्त करते हैं तत्काल उसे नष्ट कर दें ।
- iv) अपने कार्ड को व्यक्तिगत अभिरक्षा में सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और अपने पिन, पासवर्ड और अन्य सुरक्षा जानकारी को सदैव गुप्त रखें।
- v) अपनी कार्ड रसीदों को सुरक्षित रखें और उन्हें सावधानीपूर्वक नष्ट करें।
- vi) यदि आप चेक किसी बैंक खाते में जमा कर रहे हैं तो खाताधारक (कखग बैंक खाता - चछज) का नाम चेक पर लिखें । चेक के रिक्त स्थान पर लकीर खींच दें ताकि अनधिकृत व्यक्ति अतिरिक्त संख्या या नाम न जोड़ सकें ।

ग. यदि आपकी चेक बुक या एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, या आपके पिन, पासवर्ड या अन्य सुरक्षा जानकारी का पता किसी और हो जाता है तो आपके द्वारा अधिसूचित करने पर हम इसके दुस्प्रयोग को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे ।

घ. यदि आपको संदेह है या आपको पता चलता है कि आपकी चेकबुक, कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है या कोई आपका पिन, पासवर्ड या सुरक्षा संबंधी जानकारी जानता है तो यह आवश्यक है कि पता चलते ही आप हमें सूचित करें।

ड. उक्त के खोने की जानकारी आप हमें आपको दिए गये हमारे 24 घंटे कार्यरत टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं और इस आशय की लिखित पुष्टि भी

शीघ्र भेजें । विकल्प के तौर पर, इस उद्देश्य के लिए हमारे द्वारा दिये गये पते पर ई-मेल के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं ।

- किसी दुस्प्रयोग के लिए आप तब तक उत्तरदायी होंगे जब तक कि हमें सूचित नहीं किया जाता है ।

## 8.5 इंटरनेट बैंकिंग

ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग तब तक सुरक्षित और सुविधाजनक है जब तक आप कुछ सामान्य सुरक्षा उपाय अपनाते हैं ।

### कृपया निम्नलिखित सलाह का पालन करें ।

- क. हमारी इंटरनेट बैंकिंग साइट पर सीधे जाएं । किसी अन्य साइट के लिंक या ई-मेल के माध्यम से साइट पर न जाएं और जाली वेबसाइटों से बचने के लिए प्रदर्शित डोमेन नाम की जांच करें ।
- ख. पास वर्ड या पिन पूछने वाली किसी भी ई-मेल को नजरअंदाज करें और इसकी छानबीन करने के लिए हमें सूचित करें । न तो पुलिस और न ही हम कभी आपसे इसलिए संपर्क करेंगे कि आप हमें ऑनलाइन बैंकिंग या भुगतान कार्ड के पिन या आपके पासवर्ड की जानकारी दें ।
- ग. हम आपको सलाह देते हैं कि हमारी इंटरनेट बैंकिंग साइट को देखने के लिए साइबर कैफे/शेयर पीसी का प्रयोग न करें ।
- घ. हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपने पीसी को नवीनतम एंटी-वायरस और स्पाई-वेयर साफ्टवेयर से नियमित रूप से अद्यतन करते रहें । हैकर्स, वायरस के हमलों या शरारती "ट्रोजन होर्स " प्रोग्रामों से सुरक्षित रखने के लिए आप सुरक्षा प्रोग्रामों को भी इंस्टाल कर सकते हैं । यह सिफारिश की जाती है कि आप अपने कंप्यूटर में एक उपयुक्त फायरवाल इंस्टाल करें ताकि आपका पीसी और उसकी सामग्री इंटरनेट पर मौजूद बाहरी तत्वों से सुरक्षित रह सके ।
- ङ. अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के "फाइल एंड प्रिंटिंग शेयररिंग" फीचर को निष्क्रिय कर दें ।
- प्रयोग में न होने पर पीसी को लॉग ऑफ कर दें ।
- छ. इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में अपनी आई डी/पिन स्टोर न करें ।
- ज. अपने खाते और लेनदेन की नियमित रूप से जांच करें ।
- हमारी सलाह मानें - ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रहें, इस हेतु मदद और मार्गदर्शन के लिए सामान्य रूप से हमारी वेबसाइटें अच्छी होती हैं ।

## 8.6 भुगतान को रद्द करना

यदि आपके द्वारा प्राधिकृत किसी भुगतान अथवा भुगतानों के सिलसिलों को आप रद्द करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित कार्य करना होगा ।

- क. □ के भुगतान को रोकने के लिए या दिए गए स्थायी अनुदेश, अथवा सीधे डेबिट को रद्द करने के लिए आपको हमें लिखित रूप में बताना होगा ।

- ख. सीधे डेबिट को रद्द करने के लिए आप हमें सूचित करें । हम सिफारिश करते हैं कि आप सीधे डेबिट के संबंध में **प्रवर्तक** को भी सूचित करें ।
- ग. यदि रद्द करने के संबंध में आप अपने निर्णय की सूचना नहीं देते हैं तो भुगतान को रद्द कर पाना संभव नहीं होगा ।

## 8.7 हानियों का उत्तरदायित्व

- क. यदि आप कपटपूर्वक कोई कार्य करते हैं तो उसकी सभी हानियों के लिए आप उत्तरदायी होंगे ।
- ख. यदि आप गैर-जिम्मेदारी पूर्वक कोई कार्य करते हैं और उससे कोई नुकसान होता है तो उसके लिए आप उत्तरदायी होंगे ।
- ग. यदि आपने कपटपूर्वक या गैर-जिम्मेदारी से कोई कार्य नहीं किया है तो कार्ड जारी करने संबंधी सेवा शर्तों के अनुसार निर्धारित राशि तक आपके कार्ड के दुस्प्रयोग के लिए जिम्मेदार होंगे ।
- घ. यदि आप अपने पिन नंबर के उजागर होने या अपने पासवर्ड अथवा अन्य सुरक्षित जानकारी को बताए गए मानकों के अनुसार नहीं रखते हैं तो दुस्प्रयोग के लिए आप तब तक उत्तरदायी होंगे जब तक कि हमें सूचित नहीं किया जाता है।

## 9. सेवाएं

### 9.1 विदेशी मुद्रा सेवाएं

- क. जब आप विदेशी मुद्रा खरीदते या बेचते हैं तो आपको संबंधित सेवाओं, विदेशी मुद्रा लेन-देनों पर लागू विनिमय दर तथा अन्य प्रभारों का ब्यौरा देंगे । यदि यह संभव नहीं होता है तो हम आपको यह बतायेंगे कि इसकी गणना कैसे की जाती है ।
- ख. यदि आप मुद्रा का विदेश में अंतरण करना चाहते हैं तो हम आपको बतायेंगे कि इसे कैसे किया जाता है तथा
- विदेशी मुद्रा सेवाओं से संबंधित नियामक अपेक्षाओं या शर्तों के बारे में जब भी आप अनुरोध करेंगे, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे ।
  - सेवाओं का ब्यौरा तथा उन्हें कैसे उपयोग में लाया जाए इसके बारे में बताएंगे ।
  - आपके द्वारा विदेश में भेजी गई मुद्रा वहां कब तक पहुंचनी चाहिए तथा यदि कोई विलंब, होता है तो उसके कारणों का ब्यौरा देंगे ।
  - विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करते समय लागू होनेवाली विनिमय दर (यदि लेन-देन के समय यह संभव न हो, तो हम बाद में दर बता देंगे)
  - कमीशन या प्रभार आपको भरना होगा उसका ब्यौरा, तथा एक चेतावनी कि मुद्रा प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को भी विदेशी बैंक के प्रभार भरने पड़ सकते हैं ।



- vi) हम आपको बताएंगे कि विदेश में भुगतान करने के लिए आपके द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी पर्याप्त है या नहीं। किसी विसंगति या अधूरे प्रलेखीकरण के मामले में, हम आपको तुरंत सूचित करेंगे तथा उसे सुधारने / पूरा करने में आपकी मदद करेंगे।
- ग. प्राप्त होनेवाले किसी धन-प्रेषण के लिए,
- i) यदि विदेश से आपके बैंक खाते में मुद्रा अंतरित की गई है तो हम प्राप्त मूल राशि तथा उस पर लगाये गये प्रभार, यदि कोई हो, के बारे में बताएंगे। यदि भेजनेवाला सभी प्रभारों को भरने हेतु सहमत हो तो आपके खाते में नकदी जमा करते समय हम कोई प्रभार नहीं लेंगे।
- ii) राशि जमा करने हेतु नियत तारीख के बाद विलंब होने की स्थिति में हम आपको (क) नियत तारीख के बाद देय अवधि के लिए ब्याज पर किसी प्रकार की हानि तथा (ख) हमारी वेबसाइट पर दी गई बैंक की मुआवजा नीति के अनुसार विदेशी मुद्रा दर में उलटफेर होने पर, आपकी ओर से मांग आने की प्रतीक्षा किए बिना, मुआवजा देंगे।
- घ. विनियामक / सांविधिक अनुदेशों के अंतर्गत जारी किए जानेवाले सभी प्रमाणपत्र हम निःशुल्क जारी करेंगे।

## 9.2 भारत के भीतर धन-प्रेषण

यदि आपको भारत के भीतर मुद्रा प्रेषित करनी हो तो हम आपको बतायेंगे कि यह कैसे करना है तथा निम्नलिखित जानकारी देंगे।

- क) सेवाओं का विवरण तथा उसे कैसे उपयोग में लाया जाए इसके बारे में बतायेंगे।
- ख) आपकी आवश्यकता के अनुसार मुद्रा भेजने का सर्वोत्तम तरीका सुझाएंगे।
- ग) सभी प्रभारों का ब्यौरा तथा समय-समय पर संशोधित टैरिफ सूची के अनुसार सेवा के लिए आपके द्वारा भरे जानेवाले कमीशन की जानकारी देंगे।
- घ) विलंब होने पर हम बैंक की मुआवजा नीति के अनुसार आपको हुई हानि/व्यय के लिए किए गए अतिरिक्त खर्च के लिए आपकी ओर से मांग आने की प्रतीक्षा किए बिना, मुआवजा देंगे।

## 10. शिकायतें, परिवाद तथा फीडबैक

### 10.1 आंतरिक प्रक्रियाएं

- (क) यदि आपको शिकायत करनी है, तो हम बतायेंगे
- (i) यह कैसे किया जाए।
- (ii) शिकायत कहां की जाए।
- (iii) कब तक जवाब की अपेक्षा करें।

- (iv) निवारण के लिए किसे संपर्क किया जाये।
- (v) परिणाम से खुश नहीं हैं तो क्या किया जाये।
- ख. यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो हमारा स्टाफ आपकी सहायता करेगा।
- ग. हम आपको बतायेंगे कि शिकायतों के उचित और तत्काल निपटारे के लिए हमारी प्रणाली का ब्योरा कहां से प्राप्त होगा। हम अपनी वेबसाइट पर अपनी शिकायत निवारण नीति को भी जारी करेंगे।
- घ. हम शाखा में उस अधिकारी का नाम प्रदर्शित करेंगे जिसे आप शिकायत होने पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी शिकायत का निवारण शाखा स्तर पर नहीं होता है तो आप शाखा में प्रदर्शित पते पर क्षेत्रीय प्रबंधक/आंचलिक प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं।
- ङ. यदि आपकी शिकायत लिखित रूप में प्राप्त होती है, तो हम एक सप्ताह के भीतर प्राप्ति-सूचना / उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी शिकायत नामित टेलीफोन हेल्पडेस्क या ग्राहक सेवा नंबर पर फोन द्वारा बतायी जाती है, तो हम आपको एक शिकायत संदर्भ नंबर उपलब्ध करायेंगे तथा हो रही प्रगति के बारे में यथोचित समयावधि में जानकारी देते रहेंगे।
- च. मामले की जांच करने के बाद, हम आपको अपना अंतिम उत्तर भेजेंगे या समझायेंगे कि जवाब देने में हमें क्यों अधिक समय लग रहा है और ऐसा हम आपकी शिकायत प्राप्त करने की तारीख से छः सप्ताह के भीतर करने का प्रयत्न करेंगे तथा आपको बतायेंगे कि यदि आप अब भी संतुष्ट नहीं हैं तो कैसे अपनी शिकायत को आगे बढ़ा सकते हैं।

## 10.2 बैंकिंग लोकपाल योजना

- क) हम अपनी वेबसाइट पर और अपनी सभी शाखाओं पर एक नोटिस प्रदर्शित करेंगे जिसमें यह बताया गया है कि हम भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के अंतर्गत आते हैं। नाममात्र का प्रभार देकर, अनुरोध करने पर, इसकी एक प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।
- ख) हमें शिकायत करने के 30 दिन के अंदर यदि आपको हमसे संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है और आप अपने परिवादों के निवारण के लिए कुछ और उपाय करना चाहते हैं, तो आप बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना की मुख्य-मुख्य बातें शाखाओं के नोटिस बोर्डों पर प्रदर्शित की गयी हैं और योजना हमारे वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी है। हमारा स्टाफ इस संबंध में क्रियाविधि को स्पष्ट करेगा।

## 10.3 हम कोड तथा ग्राहक संतुष्टि के प्रावधानों के कार्यान्वयन के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक संतुष्टि लेखा-परीक्षा सिस्टम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाएंगे।

## 11. विज्ञापन, विपणन और बिक्री

- क. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विज्ञापन और प्रचारक संबंधी सभी सामग्री स्पष्ट हैं।
- ख. किसी भी मीडिया या विज्ञापन संबंधी साहित्य में किया गया कोई विज्ञापन जो बैंकिंग सेवा या उत्पाद की ओर ध्यान खींचता हो और जिसमें किसी ब्याज दर के बारे में बताया गया हो उसमें हम यह भी उल्लेख करेंगे कि क्या कोई अन्य शुल्क या प्रभार भी वहां लागू होगा तथा अनुरोध किए जाने पर संबंधित शर्तों के पूर्ण विवरण उपलब्ध हैं।
- ग. यदि हम समर्थक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तीसरे पक्ष की सेवाएं लेते हैं तो हमारी यह अपेक्षा होगी कि वह तीसरा पक्ष आपकी व्यक्तिगत और कारोबार संबंधी सूचनाओं (यदि ऐसे तीसरे पक्ष के पास कोई सूचना उपलब्ध हो) का उतनी ही गोपनीयता और सुरक्षा के साथ इस्तेमाल करे जितनी गोपनीयता और सुरक्षा हम बरतेंगे।
- घ. हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अन्य पार्टी या एजेंट, जो हमारी ओर से कार्य कर रहा है या हमारे उत्पादों की बिक्री कर रहा है, उसके द्वारा कोड के क्षेत्र में आने वाले सभी उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित कोड का अनुपालन किया जाता है।
- ङ. समय-समय पर आपके द्वारा लिए गए हमारे उत्पादों की नई विशेषताओं के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे अन्य उत्पादों अथवा हमारे उत्पादों/सेवाओं से संबंधित बिक्री-संवर्द्धक प्रस्तावों के बारे में सूचनाएं आपको तभी दी जाएंगी यदि आपने **मेल** द्वारा या हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन द्वारा अथवा हमारी फोन बैंकिंग/ग्राहक सेवा संबंधी टेलीफोन नंबरों पर इस प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दी हो।
- च. हमने अपने प्रत्यक्ष बिक्री एजेंसियों (डीएसए) के लिए एक आचार संहिता बनाई है, जिनकी सेवाएं हम अपने उत्पादों/सेवाओं के विपणन के लिए ले सकते हैं तथा जिनके लिए यह अपेक्षित है कि वे जब हमारे उत्पादों को व्यक्तिगत रूप से या फोन के माध्यम से आपको बेचने के प्रयास करें तो अन्य बातों के अलावा अपनी पहचान भी आपको बताएं।
- छ. आपसे इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में कि हमारा प्रतिनिधि/कूरियर या हमारी प्रत्यक्ष बिक्री एजेंसी किसी अनुचित आचरण में लिप्त है या इस संहिता का उसने उल्लंघन किया है तो हम उसकी जांच कर शिकायत दूर करने तथा हानियों की भरपाई करने के लिए समुचित कदम उठाएंगे।

## 12. निगरानी

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड कोड की निगरानी करता है।

## 13. मदद प्राप्त करना

यदि आप कोड के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे विनिर्दिष्ट टेलीफोन हेल्पडेस्क या ग्राहक सेवा नंबर पर हमसे संपर्क करें अथवा भारतीय बैंक संघ के निम्नलिखित पते पर संपर्क करें :

भारतीय बैंक संघ,

सेंटर 1, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई - 400 05

टेलीफोन : 022-2217 4040,

फैक्स सं.- 022-2218 4222

वेबसाइट : [www.iba.org.in](http://www.iba.org.in)

अथवा, भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

भारतीय रिज़र्व बैंक भवन,

सी-7, चौथी मंजिल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051

टेलीफोन : 022-2657 3724/2657 3371;

फैक्स सं.- 022-2657 3719

ई-मेल : [help.bcsbi@rbi.org.in](mailto:help.bcsbi@rbi.org.in);

**वेबसाइट : [www.bcsbi.org.in](http://www.bcsbi.org.in)**

13.1 कोड की प्रतियां उपलब्ध हैं और उन्हें आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं तथा हम आपके अनुरोध पर उसकी प्रति कैसे उपलब्ध करायेंगे इसका स्पष्टीकरण हम अपनी सभी शाखाओं पर और अपनी वेबसाइट पर भी देंगे।

## 14. कोड की समीक्षा

इस कोड की समीक्षा दो वर्ष की अवधि के भीतर की जाएगी। इसकी समीक्षा पारदर्शितापूर्ण तरीके से की जाएगी।

## अनुबंध : शब्दावली

### ए टी एम

स्वचालित टेलर मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें ग्राहक पिन सहित अपने कार्ड का प्रयोग कर नकदी, जानकारी या अन्य सेवाएं प्राप्त कर सकता है।

### बैंक गारंटी

बैंक गारंटी किसी बैंक द्वारा अपने ग्राहक की ओर से किसी तीसरे पक्ष को गारंटी प्रलेख में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करने की प्रतिज्ञा होती है, यदि ग्राहक प्रलेख में उल्लिखित बाध्यताओं को पूरा कर पाने में असफल रहता है।

### बैंकिंग लोकपाल

बैंकिंग लोकपाल व्यक्ति लघु कारोबारियों का उनके बैंकों के साथ हुए विवादों पर विचार करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक स्वतंत्र विवाद निवारण प्राधिकारी है।

### बिल

बिल वित्तीय परक्राम्य लिखत होते हैं जैसे, विनिमय पत्र या वचन पत्र। विनिमय पत्र किसी विक्रेता द्वारा उसके क्रेता को जारी किया जाता है जिसमें वह अपने क्रेता को यह निर्देश देता है कि वह आपूर्ति की गई वस्तुओं/प्रदान की सेवाओं के लिए भुगतान करेगा। वचन पत्र के रूप में जारी किया गया बिल एक क्रेता द्वारा अपने विक्रेता को यह वचन देते हुए जारी किया जाता है कि वह आपूर्ति की गई वस्तुओं/प्रदान की गई सेवाओं के लिए उसे भुगतान करेगा।

### बिल खरीद/भुनाई

बिल की खरीद/भुनाई सामान के बिक्रेता, जिसने मांग/मीयादी विनिमय पत्र प्रस्तुत किया है, को क्रेडिट देने के तरीके हैं। मांग बिल खरीदे जाते हैं तथा मीयादी बिलो की भुनाई होती है।

### कार्ड

किसी प्लास्टिक कार्ड के लिए सामान्य शब्द जो एक ग्राहक माल और सेवाओं या नकद आहरण के लिए उपयोग में लाता है। इस कोड में एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्डों को कार्ड के रूप में शामिल किया गया है।

### नकदी क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट

नकदी क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट क्रेडिट सुविधा का एक रूप है जिसमें उधारकर्ता को एक पूर्व निर्धारित सीमा तक राशि आहरित करने की स्वीकृति दे दी जाती है, जिसके अंतर्गत वह स्वतंत्र रूप से अपनी जरूरत के अनुसार राशि उधार ले सकता है। खाते में नई राशि जमा होने की स्थिति में वह स्वीकृत सीमा के अंतर्गत नये ऋण ले सकता है। इस तरह से उक्त ऋण सीमा के रूप में कार्य करती है। बैंक बकाया देय राशि पर ब्याज लगाता है।

### नकदी हानियां

नकदी हानियों का अर्थ है वे निवल हानियां जिनमें से मूल्यह्रास घटा दिया गया हो।

### बैंक समाहरण नीति

बैंक समाहरण नीति से तात्पर्य है किसी एक खाते में राशि जमा करने हेतु बैंक में जमा विभिन्न स्थानीय तथा बाहरी चेकों के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गई नीति। अन्य बातों के साथ-साथ इस नीति में निम्नलिखित शामिल हैं :

- षुक्र खरीदी अनुरोध
- षुक्र जमा करने हेतु निर्धारित समय-सीमा
- षुक्र समाहरण में विलंब होने पर ब्याज का भुगतान
- स्थानीय एवं बाहरी चेकों को तुरंत जमा करना
- मार्ग में खोये चेक और लिखत

### **क्षतिपूर्ति नीति**

क्षतिपूर्ति नीति से तात्पर्य है किसी बैंक द्वारा अपनायी गयी वह नीति जिसके अंतर्गत बैंक अपनी तरफ से हुई भूल-चूक के कारण अपने ग्राहकों द्वारा उठायी गयी वित्तीय हानियों की क्षतिपूर्ति करता है।

### **ऋण सुविधाएं/बैंक ऋण**

बैंक द्वारा दी गयी ऋण सुविधाएं किसी मीयादी ऋण या ओवरड्राफ्ट या नकदी ऋण के रूप में हो सकती हैं जो किसी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रदान की जाती हैं तथा बैंक द्वारा बकाया राशि पर ब्याज लगाया जाता है।

### **ऋण सूचना कंपनियां (सीआईसी)**

ऋण सूचना कंपनियां वे कंपनियां हैं जिनका गठन और पंजीयन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया गया हो तथा जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रामाण-पत्र दिया गया हो। इन कंपनियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उन ऋण देनी वाली संस्थाओं से ऋण संबंधी आंकड़े ले सकती हैं जो उनकी सदस्य हैं तथा उन आंकड़ों को विश्लेषण के बाद अपने सदस्यों तथा विशिष्ट प्रयोगकर्ताओं के लिए प्रसारित कर सकती हैं।

### **लू खाता**

एक प्रकार की मांग जमाराशि जिससे खाते में शेष के आधार पर या विशिष्ट तय राशि तक कई बार आहरण करने की अनुमति हो।

### **ग्राहक**

एक ऐसा मध्यम और लघु उद्यम या उसका अधिकृत प्रतिनिधि जिसका किसी बैंक में खाता हो या वह बैंक से अन्य उत्पाद/सेवाओं का उपयोग करता हो।

### **दिवंगत का खाता**

दिवंगत का खाता एक ऐसा जमा खाता है जिसमें या तो एकल खाता धारक दिवंगत है या संयुक्त खाता होने की स्थिति में एक या उससे अधिक संयुक्त खाता धारक दिवंगत हैं।

### **डीमेट खाता**

डीमेट खाते का तात्पर्य ऐसा अमूर्त खाता है जिसमें निवेशकों के स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं।

### **मा खाते**

- 'बचत खाते की जमाराशि' का अभिप्राय एक प्रकार की ऐसी मांग जमाराशि है जिस पर किसी विशिष्ट अवधि में बैंक द्वारा अनुमत आहरणों की संख्या तथा आहरित की जाने वाली राशि पर कुछ प्रतिबंध होते हैं।

- 'मीयादी जमाराशि' का अभिप्राय है बैंक द्वारा किसी नियत अवधि के लिए प्राप्त ऋण जमाराशि जो नियत अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही आहरित की जा सकती है और इसमें आवर्ती/अल्पावधि जमाराशियां/सावधि जमाराशियां/मासिक आय प्रमाणपत्र/तिमाही आय प्रमाणपत्र आदि शामिल होते हैं।
- 'नोटिस जमाराशि' का अभिप्राय है विशिष्ट अवधि के लिए मीयादी जमाराशि लेकिन इसे एक पूर्ण बैंकिंग दिवस का नोटिस देकर आहरित किया जा सकता है।

### **इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली**

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली एक ऑनलाइन प्रेषण प्रणाली है जिसमें बैंकों/ ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस की शाखाओं द्वारा संप्रेषण नेटवर्क के द्वारा भुगतान सूचना का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण किया जाता है।

### **इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण**

इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (**ईएफटी**) बैंकों को अपने ग्राहकों को एक खाते से दूसरे खाते में एक बैंक शाखा से दूसरी शाखा में, जहां **ईएफटी** की सुविधा उपलब्ध है, निधि अंतरण करने की सुविधा प्रदान करने में सहायता प्रदान करने के लिए भा.रि.बैं.द्वारा शुरू की गई एक योजना है।

### **ईक्विटी**

ईक्विटी का अभिप्राय है किसी निगमित इकाई की पूंजी का अंश जो मूर्त या अमूर्त रूप में किसी कंपनी के शेयर हैं।

### **फैक्टरिंग**

फैक्टरिंग प्राप्य राशियों के प्रबंधन का एक वित्तीय विकल्प है। इसमें क्रेडिट बिक्री नकद में परिवर्तित होती है।

### **सरकारी बांड**

सरकारी बांड का अभिप्राय है सार्वजनिक ऋण जुटाने के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित तथा जारी प्रतिभूति।

### **गारंटी**

किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया वचन।

### **खाते का अनुचित परिचालन**

खाते में पर्याप्त राशि न होने पर भी उस पर चेक जारी करना; खाते में प्राप्त होने वाले/जाने वाले ऋणों का बार-बार लौटना; खाते में से अधिक राशि आहरित करना; या खाताधारक द्वारा अपनी स्वीकृत ऋण सीमा को पार करना; केवायसी प्रक्रिया का पालन न करना; ग्राहक द्वारा धोखा-धड़ी/ भ्रष्टाचार या कपटपूर्ण इरादे का प्रदर्शन; पीएमएलए अधिनियम, 2002 के अधीन धन-शोधन के कार्यकलाप में संलग्नता /संदेहास्पद लेन-देन आदि खाते के अनुचित परिचालन के उदाहरण हैं।

### **साख-पत्र**

साख पत्र किसी बैंक द्वारा जारी ऐसा दस्तावेज है, जो अक्सर किसी हिताधिकारी को साख-पत्र में वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उसे भुगतान करने का अटल वचन देता है।

## मेल

मेल किसी भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक पत्र होता है।

## व्यापारिक सेवाएं

सामान्यतया व्यापारिक सेवाओं का अभिप्राय ऐसे व्यापारिक खातों से है जिन्हें व्यापारिक और सेवा प्रतिष्ठानों में क्रेडिट/डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान स्वीकार करने की अनुमति हो। ये कार्ड टर्मिनल अर्थात् 'प्वाइंट ऑफ सेल' (पीओएस) मशीन या फोन पर या इंटरनेट के जरिए काउंटर पर स्वीकार किए जाते हैं।

## माइक्रो और लघु उद्यम

माइक्रो और लघु उद्यम ऐसे उद्यम हैं जो विनिर्माण और सेवा प्रदाता क्षेत्र में होते हैं।

माइक्रो उद्यम को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :

किसी भी ऐसे उद्योग जहां प्लांट और मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक न हो, के माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगा कोई उद्यम।

या

सेवा प्रदान करनेवाला ऐसा कोई उद्यम जहां उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक न हो।

लघु उद्यम को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :

किसी भी ऐसे उद्योग जहां प्लांट और मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम हो, के माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगा कोई उद्यम।

या

सेवा प्रदान करने में लगा कोई उद्यम जहां उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपए से कम हो।

## राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) सिस्टम एक बैंक शाखा से किसी दूसरी बैंक शाखा में निधि के अंतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी निधि अंतरण सिस्टम है।

## निवल संपत्ति

**निवल संपत्ति** का अभिप्राय है पूंजी और निर्बंध प्रारक्षित निधियों का जोड़ जिसमें से संचित हानि घटा दी गई हो।

## नामांकन सुविधा

नामांकन सुविधा से बैंक किसी मृत व्यक्ति के नामिती को जमाकर्ता के खाते में जमा राशि का भुगतान कर सकता है, मृत व्यक्ति द्वारा बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गयी वस्तुओं को नामिती को लौटा सकता है, किरायेदार की मृत्यु हो जाने पर सेफ्टी लॉकर में जो भी रखा हो, उसे किरायेदार के नामिती को दे सकता है।

## निधितर सुविधा



निधितर सुविधाएं बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऐसी सुविधाएं हैं जिनमें बैंक का कोई खर्च नहीं होता। बैंक ग्राहक सुविधाओं को उपयोग करता है लेकिन यह कालांतर में वित्तीय जवाबदेही में परिणत हो सकता है यदि ग्राहक इन सुविधाओं का उपयोग करने के एवज में की गई प्रतिबद्धता को पूरा नहीं कर पाता। निधितर सुविधाओं में आम तौर पर बैंक गारंटी, प्राप्तियां और साख पत्र का समावेश है।

### **अनर्जक आस्तियां**

**अनर्जक आस्ति** ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसमें

- (i) मीयादी ऋण के मामले में मूलधन का ब्याज और/या किश्त 90 दिनों से अधिक की अवधि तक **बकाया** रहता है।
- (ii) ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में खाता 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है।
- (iii) खरीद या भुनाए गए बिल की स्थिति में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि तक बकाया रहता है।

### **प्रवर्तक**

ऐसा संगठन जो ग्राहक के अनुदेशों के अनुसार, ग्राहक के खाते से भुगतान वसूलता है।

### **अन्य सुरक्षा सूचना**

वैयक्तिक तथ्यों तथा सूचना का चयन (ऐसे क्रम में जो ग्राहक जानता है) जिनका खातों का उपयोग करते समय पहचान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

### **पुराना (आउट ऑफ डेट) (स्टेल) चेक**

ऐसा चेक जिसका भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि चेक पर लिखी तारीख उसके प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने पहले की तारीख है।

### **'आउट ऑफ ऑर्डर' स्थिति**

यदि किसी खाते में बकाया शेष राशि लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण प्राधिकार से अधिक रहती है तो उस खाते को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां प्रधान परिचालन खाते में बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा/आहरण प्राधिकार से कम है, लेकिन तुलन पत्र की तारीख को ऐसे खातों में यदि लगातार 90 दिनों में कोई राशि जमा नहीं हुई है या उसी अवधि में नामे किए ब्याज को पूरा करने के लिए जमा राशियां पर्याप्त नहीं हैं तो ऐसे खातों को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जाना चाहिए।

### **अतिदेय**

किसी क्रेडिट सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई ऐसी राशि, जिसे बैंक द्वारा निर्धारित नियत तारीख पर चुकाया न गया हो, को "अतिदेय" माना जाता है।

### **पैन**

स्थायी खाता नंबर, जिसे आय कर विभाग, भारत सरकार द्वारा आबंटित किया जाता है। इसमें अखिल भारतीय दस अक्षरांकीय कैरेक्टर होते हैं। इसे लैमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। यह स्थायी होता है और कर निर्धारती का पता बदल जाने या निर्धारण अधिकारी के बदल जाने के कारण नहीं बदलता है।

## पासवर्ड

कोई शब्द या संख्या या इन दोनों को मिलाकर बनाया गया कोई एक्सेस कोड जिसको ग्राहक ने ज़िम्मा है ताकि वह फोन या इंटरनेट बैंकिंग सेवा का उपयोग कर सके। इसका उपयोग पहचान के लिए भी किया जाता है।

## भुगतान तथा निपटान प्रणाली

भुगतान तथा निपटान प्रणाली से तात्पर्य ऐसी वित्तीय प्रणाली से है जहां निधियों को वित्तीय संस्थाओं के बीच नामे या जमा के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं और प्रयोक्ताओं के बीच धन का अंतरण किया जाता है।

## पिन

एक गोपनीय नंबर, जिसके कार्ड सहित प्रयोग से ग्राहक वस्तुओं/सेवाओं के लिए भुगतान कर सकता है, नकदी निकाल सकता है तथा बैंक द्वारा प्रदान की जा रही अन्य सुविधाओं का उपयोग कर सकता है।

## तत्काल सकल भुगतान

परिवर्णी शब्द "आरटीजीएस " का अर्थ है कि तत्काल सकल भुगतान। आरटीजीएस सिस्टम बैंकिंग चैनल के माध्यम से निधि अंतरण का सर्वाधिक तेज साधन है। आरटीजीएस के अंतर्गत लेन-देनों का निपटान एक के सामने एक करके होता है, जिसे "सकल" भुगतान तथा "तत्काल " अर्थात् बिना कोई प्रतीक्षा किए के रूप में परिभाषित किया गया है।

## युक्तिसंगत ( रीजनेबल )

कारण तथा सही विचारणा द्वारा नियंत्रित या उनके अनुसार होना या सहज बुद्धि की सीमाओं में होना, न अत्यधिक या न अधिकतम

## पुनः कब्जे में लेना

पुनः कब्जे में लेना वह प्रक्रिया है जिसमें यदि देनदार ऋण समझौते के अनुसार भुगतान नहीं पाता तो ऋणदाता उस ऋण के लिए अपने पास सुरक्षित रखे मकान या माल (जैसे कार) को अपने कब्जे में ले लेता है।

## पुनर्वास पैकेज

पुनर्वास पैकेज किसी बीमार इकाई के पुनर्वास के लिए लिया जाने वाला पैकेज है। यह पैकेज भारतीय रिज़र्व बैंक के नियम के अनुरूप होना चाहिए और इसमें सामान्यतया निम्नलिखित तथ्य शामिल होते हैं -

- (i) कार्यशील पूंजी जिसमें विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर में छूट हो।
- (ii) निधिक ब्याज मीयादी ऋण
- (iii) कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण
- (iv) मीयादी ऋण
- (v) आकस्मिक ऋण सहायता

## स्मार्ट कार्ड

स्मार्ट कार्ड क्रेडिट कार्ड के साइज का प्लास्टिक कार्ड है जिसमें सन्निहित माइक्रोचिप होती है, जो डाटा प्रोसेस कर सकती है। यह डाटा पहचान प्रमाणीकरण तथा भंडारण का सुरक्षित तरीका प्रदान करती है। इसका प्रयोग टेलिफोन करने, इलेक्ट्रॉनिक नकदी भुगतान तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है।

### **सिक्युरिटी**

वह आस्ति जो किसी ऋण या अन्य देयता के समर्थन के तौर पर प्रयुक्त होती है। यदि उधारकर्ता ऋण अदा करने में चूक करता है तो उधारदाता बैंक उधार दी गई राशि के बदले में इन संपत्तियों के लिए दावा कर सकती है।

प्राथमिक सिक्युरिटी वह आस्ति है जो उधारकर्ता को दी गई क्रेडिट सुविधा से निर्मित हुई होतथा/या उधारकर्ता के उस व्यवसाय/परियोजना से सीधी जुड़ी हुई हो जिसके लिए क्रेडिट सुविधा ली गई है।

संपार्श्विक सिक्युरिटी ऐसी कोई अन्य सिक्युरिटी जो उक्त क्रेडिट सुविधा के लिए प्रस्तुत गई हो उदाहरण के लिए आभूषण गिरवी रखना तथा मकान को बंधक रखना आदि।

### **सेवाएं**

- (i) लघु और माइक्रो सेवा उद्यमों में सेवा का अभिप्राय है छोटी सड़क और जल परिवहन परिचालक, छोटे कारोबार, पेशेवर और स्व-नियोजित व्यक्ति और अन्य सेवा उद्यम।
- (ii) बैंकों द्वारा दी जानेवाली सेवाओं में विभिन्न सुविधाएं जैसे प्रेषण (डीडी, एमटी, टीटी आदि जारी करना) नकद राशि की प्राप्ति एवं भुगतान, नोटों का विनिमय और बैंकों द्वारा ग्राहकों को उपलब्ध कराई जानेवाली विदेशी मुद्रा का समावेश है।

### **बीमार इकाई**

बीमार इकाई से अभिप्राय ऐसी इकाई से है जिसका खाता छः महीने से अधिक अवमानक रहा हो या गत लेखा वर्ष के दौरान निवल के 50 प्रतिशत तक संचित नकद हानि के कारण निवल में घास हुआ हो और कम-से-कम दो वर्षों से इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा हो।

### **अवमानक**

अवमानक आस्ति वह आस्ति है जो 12 महीने या इससे कम अवधि के लिए अनर्जक आस्ति (एनपीए) रही हो।

### **टैरिफ सूची**

किसी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं पर लगाये गये प्रभार।

### **अप्रदत्त चेक**

ऐसा चेक जिसे अदाकर्ता बैंक द्वारा बिना भुगतान किये ही लौटा दिया गया है।

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड  
सी-7, चौथी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051  
टेलीफोन : 022-2657 3724/2657 3371